

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 2001 (आषाढ़ 2, 1923)
 No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 2001 (ASADHA 2, 1923)

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4
[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(थल सेना विभाग)

थल सेना विभाग

सं. 350, दिनांक 23 मई, 2001—राष्ट्रपति सहर्ष यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 से अधीन नियमित करने हैं :—

सं. 351, दिनांक 22 मई, 2001—थल सेना अनुदेश 37/78 तथा यथा संशोधित सेना अनुदेश 4/96 के अधीन राष्ट्रपति विमानचिह्नित सीधे स्थाई नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सैनिक हस्त चिकित्सा कार

लीफ्टेंट को पद पर (परख पर)

स्थायी कमीशन

लीफ्टेंट को रैंक में (परख पर)

अनुराज तिलोथी, एम डी डी एस (एमआर-07507-को)
 ए एस सी—04 नवम्बर 2000 ।

डी एस बट्टोपाध्याय (डी आर-10517-आई), डी डी एस
 (पंजाब)—19-10-2000 (पूर्वस्थित) ।

एस. के. पुरी

आर. के. सेठी

प्रिंसिपल

विर्गैडियर

उप महापरीक्षक (कार्यक्रम)

उप डी. टी. डी एस

स 52, दिनांक 18 मई 2001—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की महानिरीक्षण करने हैं —

निर्वाचित सेवा

अन्तर्जातीय सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित जेण्टलमैन कैंडिडेट्स जो कि 90 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, जो कि के पद पर उनकी सम्मुख अस्तित्व विधि से विशेष सेवा अनुदान 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम माना अन्तर्जातीय सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जा रहा है —

आई।एम.ए. संख्या, नाम, एस.एस. संख्या, आर्म्/सीबीएस, अन्तर्जातीय सेवा आयोग (परखाधीन) विधि

90 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

टी/5783 गल्लगल सिंह 38829 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5784 उषाधाय राजेश रामकृष्ण 38830 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5786 अनप गसाई 38831 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5787 कलदीप सिंह 38832 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5788 लक्ष्मण बल्लारिया 38833 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5789 अमित गौड़ 38834 डब्ल्यू.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5790 एकज गर्ग 38835 आई.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5792 श्रीधर एस. नेराली 38837 के.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5794 बी. सत्यानारायण 38838 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5795 करमवीर सिंह गिल 38839 पी.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5796 चन्म गगनन्दा सिंह 38840 के.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5797 सिंह योगबर्धन ब्रह्मकुमार 38841 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5798 गगनदीप सिंह शेट्टी 38842 पी.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5799 शान प्रताप शर्मा 38843 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5800 जयन गौड़ 38844 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5801 सुमेश शर्मा 38845 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5803 विरेंद्र क. 38847 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5805 इन्दानील घोष 38848 डब्ल्यू.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5806 भगवान प्रकाश द्विवेदी 38849 आई.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5807 विनय सिंह जसवान 38850 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5808 जयधर शर्मा 38851 डब्ल्यू.एस. संख्या—14 जनवरी 2000 ।

टी/5809 शिव कुमार सिंह 38852 आई.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5810 रमनवीर सिंह 38853 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5812 कपिल यादव 38855 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5815 गुरान्त कुमार शिवा 38858 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5816 वैभव दिवेंदी 38859 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5819 वीरेश शर्मा 38862 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5821 गौरव पाठक 38864 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5822 अमित टनवन 38865 डब्ल्यू.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5826 संजय पिल्ले 38867 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5827 आर. श्रीकांत भार्गवा 38868 के.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5828 उषावती कुमार श्रीवास्तव 38869 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5829 साधन तलुजा 38870 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5830 अभिषेक शर्मा 38871 के.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5831 जयजय कुमार 38872 एस.एस. संख्या—13 जनवरी 2000 ।

टी/5832 अरुणशेखर सी 38873 पी इजिनियर्स-13
जनवरी 2000 ।

टी/5833 शरद प्रसाद राजत 38875 ए इजिनियर्स-16
जनवरी 2000 ।

टी/5834 सुमीत वैभ 38879 इल्यू इजिनियर्स-13
जनवरी 2000 ।

टी/5841 के एस राजशेखर रंढी 38880 एल इजिनियर्स-
23 जनवरी 2000 ।

टी/5842 अनुराग सक्सेना 38881 एन ईएमई-23
जनवरी 2000 ।

टी/5843 असीम विनसेन्ट नीरज सूरिन 38882 डब्ल्यू
सिग्नलस-31 जनवरी 2000 ।

टी/5844 दीपक पलाळे 38883 वाई इजिनियर्स-03
फरवरी 2000 ।

टी/5845 शशी शरमई 38884 एफ सिग्नलस-31 जनवरी
2000 ।

टी/5846 शकुना अमिता प्रदीप 38886 एम सिग्नलस-23
जनवरी 2000 ।

टी/5851 शाह आनन्द नटवरलाल 38888 एडम इजिनियर्स-
-03 फरवरी 2000 ।

टी/32738 विनय सिंह शंखाब्द 38889 ए इजिनियर्स-
05 मई 2000 ।

निम्नलिखित जेण्टलमैन काँडेट्स जो कि 87 टी जी सी
पाठ्यक्रम के हैं, को ले के पद पर उनके सम्मुख अखिल विधि
से विशेष सेवा अनुच्छेद 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों से अंतर्गत
अल्पकालीन सेवा आयोग (परशाधीन) अनुदान किया जाता है —

आई एम ए संस्था, नाम, एस एस संस्था, आर्मे/सीई
अल्लकालीन सेवा आयोग की तिथि

87 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

टी/5662 निगथाजाम विरन्ने सिह 37886 ए सिग्नलस-
25 जुलाई 98 ।

टी/31317 पट्टीर डिग्रेड इकरगव 37889 एन ईएमई-
09 नवम्बर 98 ।

निम्नलिखित जेण्टलमैन काँडेट्स जो कि 87 टी जी सी और
07 यूईएस पाठ्यक्रम के हैं, को ले के पद पर उनके सम्मुख अखिल
विधि से विशेष सेवा अनुच्छेद 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों से अंतर्गत
टी जी सी पाठ्यक्रम वाले को ले के पद पर स्थायी आयोग पद पर दिया जाता है । उन्हें 12 जून 97
के दिनांक से अनुच्छेद 1/एस/94 से अंतर्गत (टी जी सी) पाठ्य-
क्रम वाले को तथा सेवा अनुच्छेद 2/93 परिशिष्ट संस्था 12/96 के नियम तथा शर्तों से अंतर्गत

यू ईएस पाठ्यक्रम वाले को वैश्वकालीन सेवा आयोग (तथा पीन)
अनुदान किया जाता है —

आई एम ए संस्था, नाम, एस एस संस्था, आर्मे/सीई
अल्लकालीन सेवा आयोग की तिथि

87 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

टी/5592 सम्राट मोहन्ता 37823 के सिग्नलस-16 जुलाई
98 ।

टी/5616 दीपक राज एस 37844 एन ईएमई-16 जुलाई
98 ।

टी/5622 उदयन वर्मा 37847 एफ इजिनियर्स-16 जुलाई
98 ।

टी/5665 पञ्चवीर सिंह 37887 एन इजिनियर्स-10
अगस्त 98 ।

07 विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम

य/122 राहुल शर्मा 73297एम, ईएमई-02 अगस्त
97 ।

य/135 राहुल शर्मा 37905एम, सिग्नलस-09 जुलाई
97 ।

य/183 हर्षभावा सिंह 37941एम ईएमई-11 अगस्त
97 ।

य/190 नीतिन सहगल 37948 पी ईएमई-11 जून 98 ।

य/206 विनय राव 37958वाई ईएमई-11 जून 98 ।

निम्नलिखित जेण्टलमैन काँडेट्स जो 86 टीजीसी पाठ्यक्रम
का हैं, को ले के पद पर उनके सम्मुख अखिल विधि से सेवा
अनुच्छेद 1/एस/94 के नियम शर्तों के अन्तर्गत अल्पकालीन
सेवा आयोग (परशाधीन) अनुदान किया जाता है

अमरदीप सिंह (एसएस-37437एम) इजिनियर्स-15
जनवरी 98 ।

स्थायी आयोग

निम्नलिखित जेण्टलमैन काँडेट्स जो कि 87 टीजीसी और 07
यूईएस पाठ्यक्रम के हैं । जिनको टी जी सी संस्था ने पहले टी (प्रद-
निर्दिष्ट टीजीसी) और यू (प्रदनिर्दिष्ट यूईएस) उपसर्ग मिले हुए हैं,
को 12 जून 99 से विशेष सेवा अनुच्छेद 1/एस/94 के नियम
तथा शर्तों के अंतर्गत (टीजीसी) पाठ्यक्रम वाले को तथा सेवा
अनुच्छेद 2/93 के अंतर्गत (यूईएस) पाठ्यक्रम वाले को ले के
पद पर स्थायी आयोग पद पर दिया जाता है । उन्हें 12 जून 97
के दिनांक से अनुच्छेद 1/एस/94 से अंतर्गत (टीजीसी) पाठ्य-
क्रम वाले को तथा सेवा अनुच्छेद 2/93 परिशिष्ट संस्था 12/96 के नियम

12/96 के अन्तर्गत (यूईएस) पाठ्यक्रम वालों को दो वर्ष पूर्व दिनांकित क्षीरछत्ता, सेवन तथा उन्नीय के लिए दी जाती है :-

टी/31387 पडोरा विवेक शंकरराव (आईसी-58943की) इंजीनियर्स की क्षीरछत्ता टी/5645, उमेश कुमार संहता (आईसी-58942एफ) ईएमई के नीचे.

टी/5662 निम्नलिखित विवेक सिंह (आईसी-58997-एल) इंजीनियर्स की क्षीरछत्ता टी/5648 सज्जन सिंह (आईसी-58996 एच) ईएमई के नीचे जिनका नाम भारत के राजपत्र विभाग 29 जनवरी 2000 में प्रकाशित हो चुका है।

निम्नलिखित जैष्ठिकमैन कंडिशन जो कि 90 टीजीसी और 8ए यूईएस पाठ्यक्रम के हैं। जिनको जीसी संस्था के पहले टी (प्रथम शक्ति टीजीसी) और यू (प्रदर्शित यूईएस) उपसर्ग लगे हुए हैं जो 09 दिसंबर 2000 से विशेष सेवा अनुदेश 1/एम/94 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (टीजीसी) तथा सेवा अनुदेश 2/93 के अन्तर्गत (यूईएस) को ले. के पद पर स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है। उन्हें 13 दिसंबर 1998 से विशेष सेवा अनुदेश 1/एम/94 के अन्तर्गत (टीजीसी) पाठ्यक्रम वालों को तथा सेवा अनुदेश 2/93 परिशोधित सेवा अनुदेश 12/96 के अन्तर्गत (यूईएस) पाठ्यक्रम वालों को दो वर्ष पूर्व दिनांकित क्षीरछत्ता, सेवन तथा उन्नीय के लिए दी जाती है :-

आईएम ए. संस्था, नाम, आईसी संस्था व आम/सर्विस

टी/5831 अजय कुमार 61162एम इंजीनियर्स।

टी/5795 अमबीर सिंह गिल 61163के इंजीनियर्स।

टी/5783 सतपाल सिंह 61164एम सिंगलस।

टी/5826 संजय पिल्ले 61165 पी सिंगलस।

टी/5797 सिंह योगेश्वरन कृष्ण कुमार 61166एम इंजीनियर्स

टी/5849 अमित प्रदीप शुक्ला 61167ए सिंगलस।

टी/5827 आर श्रीकान्त भार्गवा 61168एम ईएमई।

टी/32768 विनय सिंह शेषावत 61169 इंजीनियर्स।

टी/5771 हरीश सिंह सिक्का 61170ए ईएमई।

यू/135 कोशलदेव यादव सिंह 61171एम ईएमई।

यू/38 रमेश बंगल 61172एम इंजीनियर्स।

टी/5808 उदय थोरट 61173एम ईएमई।

टी/5786 अनूप गौसाई 61174डब्ल्यू सिंगलस।

टी/5788 अश्विनी कर्तोय्या 61175आई ईएमई।

टी/5819 बीरेश शर्मा 61177के इंजीनियर्स।

टी/5839 सुनील चौधरी 61178एम इंजीनियर्स।

टी/5784 राजेश रामकृष्ण उपाध्याय 61179पी सिंगलस।

टी/5845 दीपक प्लांडे 61180के इंजीनियर्स।

टी/5846 शशी शर्मा 61181एम सिंगलस।

टी/5835 शरद प्रसाद राऊत 61182पी ईएमई।

टी/5807 विवेक सिंह जगवान 61183एम ईएमई।

टी/5801 सुमेश शर्मा 61184ए ईएमई।

टी/5828 अश्विनी कुमार श्रीवास्तवा 61185एम ईएमई।

टी/5794 बी सत्यानारायण 61186एम ईएमई।

टी/5830 अमिर्देश पांडे 61187एम सिंगलस।

टी/5815 हार्मान कुमार मिश्रा 61188डब्ल्यू ईएमई।

टी/5789 अमित गंड 61190एम सिंगलस।

टी/5816 अमर शिवदो 61192आई ईएमई।

टी/5822 अमित टंडन 61193एम इंजीनियर्स।

टी/5806 भगवान प्रकाश दिवसेवी 61191के ईएमई।

एम/250 विशाल सिंह 61197एम इंजीनियर्स।

टी/5799 भानु प्रताप चन्द 61198एम सिंगलस।

टी/5787 कुलदीप सिंह 61199एम ईएमई।

टी/5841 के एस राजाशेखर रेड्डी 61200एम इंजीनियर्स।

टी/5821 गौरव पाठक 61201पी सिंगलस।

टी/5796 अनम ग्यान्वा सिंह 61202एम इंजीनियर्स।

टी/5803 विवेक कांग 61203एम सिंगलस।

टी/5798 गगनदीप सिंह भाटिया 61204एम इंजीनियर्स।

टी/5753 विपनीत सिंह चौमा 61205एम सिंगलस।

टी/5800 पवन गोगई 61207डब्ल्यू इंजीनियर्स।

टी/5812 कपिल यादव 61208आई ईएमई।

टी/5829 साधन तलुजा 61209एम इंजीनियर्स।

टी/5790 पंकज गर्ग 61210डब्ल्यू ईएमई।

टी/5851 शाह आनन्द गटवरवाल 61211आई ईएमई।

टी/5805 इन्दीनील घोष 61212एम ईएमई।

टी/5832 अरुणशेखर सी 61214एम इंजीनियर्स।

टी/5842 अनुराग सक्सेना 61215पी ईएमई।

टी/5810 रमनवीर सिंह 61217एम ईएमई।

टी/5843 असीम विमल गिरल सूरत 61218एम सिंगलस।

टी/5792 श्रीधर एस नंगली 61219एम ईएमई।

टी/5809 शिव कुमार सिंह 61221एम ईएमई।

2. निम्नलिखित जी सी को सेवा अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत ले. के पद पर 09 दिसंबर 2000 से स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है :-

टी/5844 राजेश बन्ना 61189आई ईएमई।

टी/5840 राजीव गूलीरिया 61206एम आईसी।

(नौसेना शाखा)

टी/5६33 दीपद्वि ति 61216एनएम एड्रेसी ।

सं 354, दिनांक 22 मई 2001-राष्ट्रपति निर्माणित नियमितता कर रहे हैं :-

टी/5-80 अभिलेख सं. 61222णात नोंदली आहे.

नौसेना छात्रा

निर्वाचित अंष्ट्रान्त 13 वर्य पो वि 87 काँग्रेस भाग्यक्रम के ह⁴, व. ने. को प. प. का तन रीत 105/6 के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत 12 जून 1991 से स्थायी आयुग (परखाधीन) अनुवाग दिया जाता है :-

स्थायी बर्गीकरण

विशेष इष्टी सूची

नाम और व्यक्तिगत सं. तथा कन्वेंशन की तिथि

सब. न.

टी/5617 भूपेन्द्र च. भार (आईसी-58988के) एईसी की
वरिष्ठता टी/5615 नरेश गिरीन मेहता (आईसी-59000एक्स)
एईसी के ऊपर, टी/5614 विमलजी नारायण नायक (आईसी-
59042के) एईसी की वरिष्ठता टी/5615 नरेश गिरीन मेहता
(आईसी-59000एक्स) के पीछे प्रकाशित की जाए
जिनका नाम भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2000 में
प्रकाशित हो चुका है।

(एसडी-डब्ल्यू) जी सुरेश कुमार (8913(21)--01-01-96)

(एसडी-डब्ल्यू) एलवट्स मोरस (89131डब्ल्यू)-01-01-26 ।

(एमडी-आर) विजय कापक (८७६१८एफ)--०१-०१-९६ ।

(गमडी-एसडब्ल्यू) सयानन्द (36267एन)—0 -01-96 ।

(एस.पी.-एफ.) हीर सिंह (86066जी)-01-01-96 ।

(एसडी-एच) रमेश शर्मा (84627एच)—01.01-96 ।

(एसडी-एवी) दर्शन लाल (84026एफ)—01-01-96 ।

(मन्डो-आरइपी) महिवाल गिर (83981-ए)-01-01-
96 ।

(प्रभाष्टी-सी) सुरेश कुमार (82031ए)—01-01-96 ।

(एरर-सी) रमेश एम पारायिल (82032कें)—31-01-96 ।

(एसडी-एबी) मनमोहन बगवतिया (8472 3कें)--01-04-97।

(एसडी-एच) ए सहाय (84629एन)—01-04-97 ।

(एसडी-डब्ल्यू) सुरेन्द्र सिंह (89132बाई)-01-04-97 ।

(एसडीएम) सतीश कुमार (88610के) -0 04-97 ।

(एसडी-मीए) के सी. वैहरा (89524एन)—01-04-97 ।

(एसडो-एनएलए) एस पी एडनाथन (86368 आर)—01-04-
97 ।

(एमडी-एमई) एम सी जैश्री (85110एफ)-01-04-07 ।

(एसडी-आर) जेब सिंह (87619एच) — 01-04-97 ।

(एसडी-आर) रामपाल यादव (87620कै)—01-04-97 ।

(एसडी-आर) अरविन्दर सिंह (९७०२१५८)-८१-०१-७७ ।

(एसडी-आर) आर एम विष्ट (87622-आर)-01-04-7।

एसडी-एआर) आर एम धर्मा (88334एच)-01-04-97 ।

एम् सी सरन
ले. कर्नल
एम् एम् 8वी

गंगा सागर

स. 53, दिनांक 17 अप्रैल 2001—राष्ट्रपति नियमित
अधिकारों की सूची में संशोधन करने हैं।

प्राचीन तक्ष सेना

प्रा. वि. वि. वि. वि. वि.

गोपिकों ने बन्धन धा जाता है ।

अनुसूचित जाति आयोग, २०००, पृष्ठ-०४

आर रन्धिरा कृष्णर अडे, -4 130, दम्भेपियर-05 सितम्बर
2000 :

सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ - , २२१, मिम्बारा - ११ नवम्बर २०००

श्रीमती सिद्धा बर्मा पी:-42485, एजीडिबल-27 नवम्बर
2003

वी एन सिंह
अवर सचिव

अशोक लिख
एरमी एरओ (जेओए एंड आर)

नाम तथा मुख्यालय

बल सेना

सं. 355, दिनांक 23 मई 2001—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित राहायगी की राशय सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 1968 की धारा 10(2) के अर्थात् स्थानान्तरण सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के पक्ष पर उनके नामों को आगे अंकित तिथि से दिनांक 23 अगस्त 2001 तक या सेवा निवृत्त होने तक के लिए अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो नियुक्त किया जाता है :—

नाम तथा तिथि

(सर्व श्री)

जी एम भोगल—26 फरवरी 2001 ।

इन्द्र सिंह राव—26 फरवरी 2001 ।

यशगज सिंह—26 फरवरी 2001 ।

भगवीर सिंह—26 फरवरी 2001 ।

धर्मवीर—26 फरवरी 2001 ।

डी के शर्मा—26 फरवरी 2001 ।

ओम प्रकाश शर्मा—26 फरवरी 2001 ।

नरेश कुमार जायसवाल—26 फरवरी 2001 ।

सन्त शङ्कर सिंह—26 फरवरी 2001 ।

विशम्भर नाथ कालरा—26 फरवरी 2001 ।

जगपाल सिंह सैनी—26 फरवरी 2001 ।

छाजू राम शर्मा—26 फरवरी 2001 ।

मनमोहन शर्मा—26 फरवरी 2001 ।

हार्तिकम चन्द—26 फरवरी 2001 ।

ए के पठक—26 फरवरी 2001 ।

एम सी अग्रवाल—26 फरवरी 2001 ।

रामसिंह वर्मा—26 फरवरी 2001 ।

जी एस गिल—26 फरवरी 2001 ।

भिसारी लाल—26 फरवरी 2001 ।

जे एन शर्मा रसिक—26 फरवरी 2001 ।

आर पी भाटिया—26 फरवरी 2001 ।

कृष्ण गोपाल यादव—26 फरवरी 2001 ।

पवित्र 'गह'—05 मार्च 2001 ।

पी एस बिष्ट—26 फरवरी 2001 ।

2. इनकी नियुक्ति बिल्कुल काम चलाऊ व्यवस्था के लिए की गई है और प्रशासनिक कारणों से त्रिवा नोटिस दिए अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक इनकी नियुक्तियां समाप्त की जा सकती हैं ।

मन्मथ दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. 356, दिनांक 23 मई, 2001—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना शाखा

तोपखाना रजिमेंट

सबस्टेण्डिंग सूबेदार मेजर (जी०डी०) के पद में

सूबेदार जितेन्द्र सिंह (जे० सी०—180413 के)—
—7 सितम्बर, 2000/1 सितम्बर, 2000 ।*

सूबेदार जीध सिंह (जे० सी०—200423 एक्स)—
1 सितम्बर, 2000 ।

सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०—200452 एम)—
—1 अक्टूबर, 2000 ।

सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जे० सी०—193505 पी)—
1 अक्टूबर, 2000 ।

सूबेदार सत्य पाल (जे० सी०—214415 के)—1
अक्टूबर, 2000 ।

सूबेदार भानूदास नथू लोखंड (जे० सी०—211854
के)—17 जनवरी, 2001/1 दिसम्बर, 2000 ।*

सूबेदार सुमेर सिंह (जे० सी०—190695 के)—3
जनवरी, 2001/1 दिसम्बर, 2000 ।*

सूबेदार दया राम (जे० सी०—203509 एफ)—12
जनवरी, 2001/1 दिसम्बर, 2000 ।*

सूबेदार लाला राम (जे० सी०—186470 एफ)—3
जनवरी, 2001/1 दिसम्बर, 2000 ।*

सूबेदार बहादुर सिंह (जे० सी०—195114 एच)—4
—22 दिसम्बर, 2000/1 दिसम्बर, 2000 ।*

सूबेदार सूबे सिंह (जे० सी०—200147 ए)—13
दिसम्बर, 2000/1 दिसम्बर, 2000 ।*

सबस्टेण्डिंग सूबेदार (ए०आई०जी०) के पद में

नायब सूबेदार राजवीर (जे० सी०—257344 एन)—
29 सितम्बर, 2000/4 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार सोम दत्त (जे० सी०—257465 ए)—
ए)—1 अक्टूबर, 2000/4 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार पुरुषोत्तम बी० के० (जे० सी०—
258271 एम)—7 अक्टूबर, 2000/4 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार विरपाल सिंह (जे० सी०—258263
एफ)—28 सितम्बर, 2000/4 सितम्बर, 2000 ।

नायब सूबेदार प्रीतम चन्द (जे० सी०—258257ए)
—4 अक्टूबर, 2000/4 सितम्बर, 2000 ।

नायब सूबेदार टी० समियणन (जे० सी०—257768
एक्स)—27 सितम्बर, 2000/4 सितम्बर, 2000 ।*

नायब सूबेदार धरमवीर सिंह (जे० सी०-258256 एफ) — 4 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार बनदेव चन्द (जे० सी०-257763 बाई) — 2 सितम्बर, 2000/4 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जे० सी०-258259 एल) — 30 सितम्बर, 2000/4 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार राशन लाल (जे० सी०-258258 एच) — 25 सितम्बर, 2000/4 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार उदय कुमार (जे० सी०-258261 एच) — 13 अक्तूबर, 2000/4 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार अमर सिंह नेगी (जे० सी०-258269 पी) — 29 सितम्बर, 2000/4 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार सुरेन्दर सिंह हुन्जरा (जे० सी०-257862 एफ) — 9 सितम्बर, 2000/4 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार हरे राम साहू (जे० सी०-258273 एक्स) — 29 सितम्बर, 2000/4 सितम्बर, 2000।*

नायब सूबेदार कुलवीर सिंह (जे० सी०-258274 ए) — 15 अक्तूबर, 2000/1 अक्तूबर, 2000।*

नायब सूबेदार पाटिल अनिल कुमार गनपत (जे० सी०-257764 एफ) — 11 अक्तूबर, 2000/1 अक्तूबर, 2000।*

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह शेषावत (जे० सी०-258270 के) — 11 अक्तूबर, 2000/1 अक्तूबर, 2000।*

नायब सूबेदार रमन लाल (जे० सी०-258265 बाई) — 1 अक्तूबर, 2000।

नायब सूबेदार पाटील अरुण ध्यानदेव (जे० सी०-258268 एम) — 1 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार राजेश्वर प्रसाद राय (जे० सी०-258266 एफ) — 1 नवम्बर, 2000।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह यादव (जे० सी०-258264 डब्ल्यू) — 9 नवम्बर, 2000/1 अक्तूबर, 2000।*

नायब सूबेदार बीम विजय रवी कुमार (जे० सी०-258272 पी) — 27 दिसम्बर, 2000/01 नवम्बर, 2000।*

गव. टेटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार हिरेश चन्द्र लस्कर (जे० सी०-258845 बाई) — 14 फरवरी, 2000/01 जनवरी, 2000।*

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जे० सी०-261592 पी) — 19 अगस्त, 2000/2 फरवरी, 2000।*

नायब सूबेदार कुलबिन्दर सिंह (जे० सी०-256117 पी) — 9 नवम्बर, 2000/1 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार बाबुर सिंह (जे० सी०-256956 एम) — 16 नवम्बर, 2000/1 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार भतीहरत मोदट्टम श. मल (जे० सी०-256912 पी) — 11 अक्तूबर, 2000/1 अगस्त, 2000।

नायब सूबेदार रोमाकी कुरमैया (जे० सी०-257529 एच) — 4 सितम्बर, 2000/1 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार शक्ती सिंह (जे० सी०-258214 एल) — 17 अक्तूबर, 2000/1 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार रामानन्द (जे० सी०-259556 एल) — 20 दिसम्बर, 2000/1 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार मगनू राम (जे० सी०-259624 एम) — 8 अगस्त, 2000/1 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार एल० राजकुमार सिंघा (जे० सी०-261086 के) — 13 नवम्बर, 2000/1 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार ओम दत्त (जे० सी०-261532 ए) — 17 अक्तूबर, 2000/1 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार प्रकाश सिंह (जे० सी०-259641 एन) — 3 अक्तूबर, 2000/16 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार धरम लाल सिंह (जे० सी०-259493 एन) — 22 नवम्बर, 2000/20 अगस्त, 2000।*

नायब सूबेदार जनार्धन के० वी० (जे० सी०-257024 एम) — 26 फरवरी 1999/01 अगस्त 1997।*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह यादव (जे० सी०-260233 पी) — 14 जनवरी 1999/01 सितम्बर 1998।*

नायब सूबेदार जगमाल सिंह (जे० सी०-226543 एन) — 12 दिसम्बर 1999/01 सितम्बर 1998।*

नायब सूबेदार रामचन्द्र सिंह यादव (जे० सी०-256597 के) — 12 अक्तूबर 1999/01 सितम्बर 1998।*

नायब सूबेदार मोहन राव डागा (जे० सी०-256821 एल) — 15 मार्च 2000/01 सितम्बर 1998।*

नायब सूबेदार परताप सिंह (जे० सी०-257124 एक्स) — 25 जनवरी 2000/01 सितम्बर 1998।*

नायब सूबेदार मान सिंह (जे० सी०-255184 एन) — 10 मई 1999/01 जनवरी 1999।*

नायब सूबेदार राजसिकरन जी (जे० सी०-256482 डब्ल्यू) — 08 जून 2000/01 जून 1999।*

नायब सूबेदार बाला साहेब धिठल पोखरकर (जे० सी०-258082 एच) — 15 सितम्बर 2000/01 जुलाई 1999।*

नायब सूबेदार मन्मथलाल सिंह यादव (जे० सी०-258068 डब्ल्यू) — 03 मार्च 2000/01 सितम्बर 1999।*

नायब सूबेदार सुभाष चन्दर (जे० सी०-260818 एम) — 03 फरवरी 2000/01 सितम्बर 1999।*

- नाथब सुबेदार शिवदासतपी० क० (जेसी-257398एन)---
28 जून 2000/01 अक्तूबर 1999* ।
- नाथब सुबेदार कुलकर्ण सिंह (जेसी-259643 वाई)---
14 दिसम्बर 2000/01 अक्तूबर 1999* ।
- नाथब सुबेदार सुधरना सिंह (जेसी-258308 एच)---
19 दिसम्बर 1999/01 नवम्बर 1999* ।
- नाथब सुबेदार सुरेश साधु गोरी (जेसी-261049 डब्ल्यू)---
20 फरवरी 2000/07 दिसम्बर 1999* ।
- नाथब सुबेदार जोगा सिंह (जेसी-255143 के)---
26 जुलाई 2000/12 दिसम्बर 1999* ।
- नाथब सुबेदार दर्शन सिंह (जेसी-259170 एल)---
20 जून 2000/25 दिसम्बर 1999* ।
- नाथब सुबेदार सुभराम सिंह यादव (जेसी-257772ए)---
02 जुलाई 2000/26 फरवरी 2000* ।
- नाथब सुबेदार एम० मनी (जेसी-256659 वाई)---
01 मार्च 2000* ।
- नाथब सुबेदार ओम प्रकाश (जेसी-256582 एक)---
01 दिसम्बर 2000/01 अप्रैल 2000* ।
- नाथब सुबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-257037 के)---
2 अक्तूबर 2000/01 अप्रैल 2000* ।
- नाथब सुबेदार मधुसूदन पी० (जेसी-258028 पी)---
28 जून 2000/01 अप्रैल 2000* ।
- नाथब सुबेदार राधाकृष्णन के शार (जेसी-258194 एच)---
1 जुलाई 2000/01 अप्रैल 2000* ।
- नाथब सुबेदार एमालानी स्वामी (जेसी-258149 डब्ल्यू)---
01 जून 2000/01 अप्रैल 2000* ।
- नाथब सुबेदार शिगारा सिंह (जेसी-258398 पी)---
01 जुलाई 2000/01 अप्रैल 2000* ।
- नाथब सुबेदार विद्वत्पा जी० पी० (जेसी-259098ए)---
01 जून 2000/01 अप्रैल 2000* ।
- नाथब सुबेदार आ केनगोपाल (जेसी-260771 एच)---
30 मई 2000/01 अप्रैल 2000* ।
- नाथब सुबेदार सोम बीर सिंह (जेसी-256716 पी)---
1 अक्तूबर 2000/21 अप्रैल 2000* ।
- नाथब सुबेदार राजवीर सिंह (जेसी-259589 डब्ल्यू)---
20 मई 2000/01 मई 2000* ।
- नाथब सुबेदार अशोक जिन्नाजी नाम्बडे (जेसी-257936 एल)---
09 अगस्त 2000/09 जून 2000* ।
- नाथब सुबेदार विनायक प्रसाद सिंह (जेसी-259203 एल)---
03 जुलाई 2000/01 जुलाई 2000* ।
- नाथब सुबेदार गोपाल सिंह (जेसी-259660 वाई)---
04 अगस्त 2000/01 जुलाई 2000* ।
- नाथब सुबेदार राज निराला (जेसी-260637 एच)---
17 दिसम्बर 2000/03 जून 2000* ।
- नाथब सुबेदार रमेश्वर सिंह (जेसी-256918 डब्ल्यू)---
25 अक्तूबर 2000/15 जुलाई 2000* ।
- नाथब सुबेदार रत्न सिंह (जेसी-258111 एम)---
20 अक्तूबर 2000/15 जुलाई 2000* ।
- नाथब सुबेदार मोहन नायरजीम (जेसी-261741 पी)---
07 दिसम्बर 2000/15 जुलाई 2000* ।
- नाथब सुबेदार परदेवी गजराज पुष्पदेव (जेसी-261857 एन)---
11 अक्तूबर 2000/19 जुलाई 2000* ।
- नाथब सुबेदार शार शतपुत्र (जेसी-261010 के)---
13 नवम्बर 2000/20 जुलाई 2000* ।
- नाथब सुबेदार नारायण सिंह (जेसी-226599 ए)---
11 अक्तूबर 2000/01 दिसम्बर 2000* ।
- नाथब सुबेदार मेहता सिंह (जेसी-257027 ए)---
29 अक्तूबर 2000/01 मार्च 2000* ।
- नाथब सुबेदार रमवीर सिंह (जेसी-257074 एच)---
24 दिसम्बर 2000/01 मार्च 2000* ।
- नाथब सुबेदार गुणवर्धन सिंह (जेसी-257818 एम)---
01 दिसम्बर 2000* ।
- नाथब सुबेदार उत्तरी देवी (जेसी-257489 एम)---
17 अक्तूबर 2000/01 मार्च 2000* ।
- नाथब सुबेदार मोहन लाल (जेसी-25857 के)---
05 मार्च 2000/01 मार्च 2000* ।
- नाथब सुबेदार उज्जवल एम एम (जेसी-259873 एम)---
01 मार्च 2000* ।
- नाथब सुबेदार गणेश सिंह (जेसी-259677 एम)---
31 अक्तूबर 2000/01 मार्च 2000* ।
- नाथब सुबेदार सी लाल (जेसी-259904 एक)---
31 अक्तूबर 2000/01 दिसम्बर 2000* ।
- नाथब सुबेदार सिद्धांत सिंह (जेसी-260581 डब्ल्यू)---
31 अक्तूबर 2000/01 दिसम्बर 2000* ।
- नाथब सुबेदार बा डे गजराज सिंह (जेसी-261843 एन)---
17 अक्तूबर 2000/01 दिसम्बर 2000* ।
- नाथब सुबेदार गणेश लाल (जेसी-260923 डब्ल्यू)---
10 नवम्बर 2000/03 दिसम्बर 2000* ।
- नाथब सुबेदार हरि प्रेम (जेसी-258447 एम)---
26 दिसम्बर 2000/06 दिसम्बर 2000* ।
- नाथब सुबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-261605 एक)---
22 नवम्बर 2000/21 दिसम्बर 2000* ।

नायब सूबेदार (ए आई जी) के पद में

नायब सूबेदार राम कुमार शर्मा (जेसी-257863 के) —15 फरवरी, 2001/01 नवम्बर 2000* ।

नायब सूबेदार वृन्त कुमार के (जेसी-258275 एफ) —01 फरवरी, 2000 ।

नायब सूबेदार माधव एम ए (जेसी-258567 एम) — 5 दिसम्बर, 2000/01 दिसम्बर, 2000* ।

नायब सूबेदार विजया वर्णवार एन (जेसी-258914 वाई) —01 फरवरी, 2001 ।

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जे० सी०-258915 एफ०) — 01 फरवरी, 2001 ।

नायब सूबेदार सतीश बाबू आर० (जे० सी०-258916 के) —1 फरवरी, 2001/01 फरवरी, 2001* ।

नायब सूबेदार जनकार सिंह (जेसी-258917 एम) —07 फरवरी, 2001/01 फरवरी, 2001* ।

नायब सूबेदार भूषम आरयू (जे०सी०-258918पी०) —12 फरवरी 2001/01 फरवरी, 2001* ।

नायब सूबेदार विजय कुमार खैती (जेसी०-203561 के) —24 फरवरी 2001/01 फरवरी, 2001* ।

संक्षेपित। मान्य ।

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार राम करन सिंह (14457274 एम अब जे० सी०-263291 के) —27 अक्टूबर, 2000/26 जुलाई, 1999* ।

हवलदार राम गणेशन (14459880 एच० अब जेसी—263292 एम०) —28 जून, 2000/01 सितम्बर, 1999* ।

हवलदार शोबाल सगमी (14473581 पी अब जेसी —263293 पी०) —04 अगस्त, 2000/01 अप्रैल, 2000* ।

हवलदार लक्ष्मण कुमार (14332575 एक्स० अब जेसी —263294 एफ०) —27 अक्टूबर, 2000/21 अप्रैल, 2000* ।

हवलदार दिल सिंह यादव (15111653 एच० अब जे० सी०-263295 ए) —23 सितम्बर, 2000/01 जून, 2000* ।

बी० एच० एम० भजन लाल (14479240 ए० अब जेसी०-263296 एच०) —19 सितम्बर, 2000/15 जून, 2000* ।

हवलदार लक्ष्मण भूर्थमी (14366799 के० अब जेसी —263297 एफ०) —04 नवम्बर, 2000/30 जून, 2000* ।

हवलदार पंचद (14350049 एफ० अब जेसी — 263298 ए) —20 अक्टूबर, 2000/25 जुलाई, 2000* ।

बी० एच० एम० धनाराम एन० (14454880 एल० अब जेसी—263299 डब्ल्यू०) —17 अक्टूबर, 2000/26 जुलाई, 2000* ।

हवलदार रमजीत सिंह (14459089 वाई० अब जेसी —263300 ए) —13 नवम्बर, 2000/19 अगस्त, 2000* ।

हवलदार नारायण राम सरन (14336326 डब्ल्यू० अब जेसी —263301 ए) —17 अक्टूबर, 2000/01 सितम्बर 2000* ।

हवलदार कालुचरण तराई (14480801 डब्ल्यू० अब जेसी—263302 एल०) —11 नवम्बर 2000/01 सितम्बर 2000* ।

हवलदार राज सिंह (14342025 एन अब जेसी—263303 एन०) —31 अक्टूबर 2000/05 सितम्बर 2000* ।

आर० एच० एम० राजमन (14335320 ए अब जेसी—263304 डब्ल्यू०) —21 अक्टूबर 2000/01 अक्टूबर 2000* ।

हवलदार भागरा राम (14157782 के अब जेसी-263305 वाई) —09 अक्टूबर 2000/01 अक्टूबर 2000* ।

हवलदार मुन्नीधरन (14182379 एच अब जेसी-263306 एफ०) —30 अक्टूबर 2000/01 अक्टूबर 2000* ।

नायब सूबेदार के पद में

बी० एच० एम० सबजीत सिंह (14336340 एच अब जेसी —263307 के) —18 सितम्बर 2000/01 अप्रैल 93* ।

हवलदार राम सिंह (14356229 के अब जेसी—263308 एम) 31 अगस्त 2000/30 नवम्बर 99* ।

बी० एच० एम० मान सिंह चौहान (14340557 के अब जे० सी०-263309 पी) —24 नवम्बर 2000/01 अप्रैल 2000* ।

बी० एच० एम० पवार गहाजी शिवाजी (14665160 एक्स अब जेसी—263310 के) —30 अक्टूबर 2000/19 जून 2000* ।

हवलदार मोहन सिंह थापा (14452262 पी अब जेसी —263311 एम) —10 सितम्बर 2000/01 जुलाई 2000* ।

हवलदार नितगप्पा तुराई (14456594 डब्ल्यू अब जेसी —263312 पी) —15 सितम्बर 2000/05 जुलाई 2000* ।

हवलदार बिभूती भुपन नाथ (14476555 वाई अब जेसी —263313 एक्स) —20 अक्टूबर 2000/22 जुलाई 2000* ।

बी० एच० एम० बालम सिंह डोगवाल (14465573 ए अब जेसी-263314 ए) —08 नवम्बर 2000/31 जुलाई 2000* ।

हवलदार महिन्दर सिंह (14330068 एल अब जेसी —263315 एच) —13 नवम्बर 2000/31 जुलाई 2000* ।

हवलदार विन्दे शिवाजी नारायण (14372964 ए अब जेसी —263316 एल) —30 अक्टूबर 2000/23 अगस्त 2000* ।

हवलदार शिश राम (14452089 डब्ल्यू अब जेसी —263317 एन) —15 नवम्बर 2000/01 सितम्बर 2000* ।

हवलदार नया राम (14343606 एम अब जेसी —263318 डब्ल्यू) —08 दिसम्बर 2000/01 सितम्बर 2000* ।

बी० एच० एम० राज नारायण शिवाजी (14453381 एफ अब जेसी—263319 वाई) —02 दिसम्बर 2000/01 अक्टूबर 2000* ।

हवलदार दिग विजय (14477505 ए अब जेसी —263320 एन) —06 नवम्बर 2000/01 अक्टूबर 2000* ।

हवलदार कुंभ सिंह (14330113 एम अब जेसी
—263321 डब्ल्यू)—31 अक्तूबर 2000/*01 अक्तूबर
2000।

वी० एच० एम० राम बंकर प्रसाद (14480047 ए
अब जेसी—263322 बाई)—06 दिसम्बर 2000/*08
अक्तूबर 2000।

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

वायु रक्षा तापखाना कोर

सबसंवेदक सूबेदार मेजर (जी डी) के पद में

सूबेदार पदम सिंह (जेसी-169923एल)—02 दिसम्बर
2000/*01 दिसम्बर 2000।

सूबेदार बंन गोपाल शर्मा (जेसी-175300एम)—01
दिसम्बर 2000।

सूबेदार पणपला गांधी (जेसी-195040बाई)—26
फरवरी 2001/*01 जनवरी 2001।

सूबेदार मुकुन्दन नायर पी० (जेसी-187619के)—10
जनवरी 2001/*01 जनवरी 2001।

सूबेदार विजय नाथ (जेसी-179212बाई)—01 फरवरी
2001/*01 जनवरी 2001।

सूबेदार वल्लोला बी (जेसी-195045एम)—06 फर-
वरी 2001/*01 फरवरी 2001।

सूबेदार मोहन सिंह नेगी (179227एफ)—01 फरवरी
2001।

सबसंवेदक सूबेदार मेजर (ए०आई०एफ०सी०) के पद में

सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-169966ए)—01 मार्च
2001/*01 फरवरी 2001।

सूबेदार धरम बाल (जेसी-169782एफ)—01 मार्च
2001।

सबसंवेदक सूबेदार मेजर (ए०आई०जी०) के पद में

सूबेदार सुबे सिंह यादव (जेसी-150361के)—07 फरवरी
2001/*01 जनवरी 2001।

सूबेदार देम राज गुलेरीया (जेसी-144302एफ)—09
फरवरी 2001/*01 फरवरी 2001।

सबसंवेदक सूबेदार मेजर (लिपिक) के पद में

सूबेदार जगनंद सिंह (जेसी-200388ए)—02 फरवरी
2001/*01 फरवरी 2001।

सबसंवेदक सूबेदार (जी०डी०) के पद में

नायब सूबेदार निथ्य भुवन नाथ (जेसी०—296722एल)
—03 जनवरी 2001/*30 जून 2000।

नायब सूबेदार ए० राजेश्वर (जेसी०—297304 एच)
08 नवम्बर 2000/*01 जनवरी 2000।

नायब सूबेदार ए० इरुल्लु राव (जेसी०—296485एम)
03 अक्तूबर 2000/*01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार अर्जुन अंजना प्रोसले (जेसी०—296714
एम)—30 अक्तूबर 2000/*01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार उपिंदर मंद लाल (जेसी०—297033
डब्ल्यू)—05 दिसम्बर 2000/*16 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार जीवन गीरो (जेसी०—296995 एन)
—01 अक्तूबर 2000।

नायब सूबेदार जगमल (जेसी०—296643 डब्ल्यू)—
01 जनवरी 2001/01 नवम्बर 2000।*

नायब सूबेदार पुष्कर सिंह (जेसी०—296629 के)—
13 फरवरी 2001/*01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार गुरमुख सिंह (जेसी०—296646 के)—
01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार पाटिल अंगद (जेसी०—296921 बाई)—
25 जनवरी 2001/*01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार विश्राम सिंह (जेसी०—296952 बाई)
03 नवम्बर 2000/*01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र के० (जेसी०—296975 के)—
25 जनवरी 2001/*01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार अखिलेश कुमार शर्मा (जेसी०—297274
डब्ल्यू)—10 नवम्बर 2000/*01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार राधे कुमार (जेसी०—297312एफ)—
01 नवम्बर 2000।

नायब सूबेदार परमा नंद (जेसी०—296984 एफ)—18
दिसम्बर 2000/*01 दिसम्बर 2000।

नायब सूबेदार श्रीकांत सिंह (जेसी०—297247 एम)—
12 फरवरी 2001/*01 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार बी० फलिप (जेसी०—296996 डब्ल्यू)—
04 फरवरी 2001/*01 फरवरी 2001।

सबसंवेदक सूबेदार (ए०आई०जी०) के पद में

नायब सूबेदार रिशीपाल सिंह (जेसी०—296091 एन)
—01 जनवरी 2001।

नायब सूबेदार ओम प्रकाश स्वामी (जेसी०—296407
पी)—24 फरवरी 2001/*01 फरवरी 2001।

नायब सूबेदार सदन प्रसाद यादव (जेसी०—296476
एल)—05 मार्च 2001/*01 मार्च 2001।

नायब सूबेदार ख्याली सिंह (जेसी०—296574 एल)
05 मार्च 2001/*01 मार्च 2001।

सब-टेंटिव सूबेदार (टीआईएससी) के पद में

नायब सूबेदार राम चरण मल्लिक (जैसे-296913 ए)
—23 फरवरी 2001/*23 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार कमला नाथन सी (जैसे-296910 ए)
—16 फरवरी 2001/*23 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जैसे-297346 पी)—24
फरवरी 2001/*23 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार जोशी राम (जैसे-297227वाई)—22
फरवरी 2001/*23 जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार धर्म सिंह यादव (जैसे-297243 डब्ल्यू)
—24 फरवरी 2001/23* जनवरी 2001 ।

नायब सूबेदार किशोरी लाल (जैसे-297293 एफ)—
02 मार्च 2001/*01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार राजेश्वर कुमार शर्मा (जैसे-297295
एम)—02 मार्च 2001/*01 फरवरी 2001 ।

सब-टेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार प्रकाश कुमार मुखर्जी (जैसे-296203
एच)—21 जनवरी 2001/*01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार प्रदीप शर्मा (जैसे-216251 एच)
14 फरवरी 2001/*01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार अरवि सिंह (जैसे-296272 डी)—
19 फरवरी 2001/*01 फरवरी 2001 ।

नायब सूबेदार बालो सिंह मुखर्जी (जैसे-296273
एफ)—01 मार्च 2001/*18 फरवरी 2001 ।

*पदोन्नति के लिए उपेक्षित ।

आर चतुर्वेदी, अवर-चिव

संख्या 357, दिनांक 21 मई, 2001 : राष्ट्रपति निम्न-
लिखित पदोन्नति करते हैं ।

नियमित सेवा

सेना डाक सेवा कार

वारंट ऑफिसर से नायब सूबेदार लिपिक (डाक)

हंस राज 8368909—एन अव (जैसे-334351—एच)
—18-01-2001 ।

बलराम सिंह 8371010—के अव (जैसे-834352
एल)—12-01-2001 ।

तिलक राज कलसोत्रा 8371064—एल अव (जैसे-
834353—एल)—01-12-2000 ।

महेश्वर ओहदार 8371247—एफ अव (जैसे-834354
डब्ल्यू)—11-01-2001 ।

बलवंत सिंह शर्मा 8371485—एन अव (जैसे-834355
—वाई)—20-12-2000 ।

ध्रुव कुमार 8371575—पी अव (जैसे-834356—एफ)
—14-01-2001 ।

राज किशोर प्रसाद 8371681—एन अव (जैसे-334357
के)—02-12-2000 ।

आई जी जोन्सन 8372045—एम अव (जैसे-334358
एम)—09-01-2001 ।

गुलिल चोपड़ा 8372590—डब्ल्यू अव (जैसे-334359
पी)—22-01-2001 ।

मो० रमल आदम 8372631—पी अव (जैसे-834360के)
—10-01-2001 ।

टी० मोहन 8372779—एन अव (जैसे-834361एम)
—12-01-2001 ।

ए० गुरुनाथ 8373485—एन अव (जैसे-834362पी)
10-01-2001 ।

दिलीप कुमार बेहरा 8373081एम अव (जैसे-
834363एम)—10-01-2001 ।

एन० सीतू 8370025ए अव (जैसे-834366एल)
—16-01-2001 ।

बी० गजाननराव 8372656एन अव (जैसे-334367
एन)—12-01-2001 ।

हवलदार से नायब सूबेदार लिपिक (डाक)

कुलदारी लाल 8430426एफ अव (जैसे-834364ए)
—23-11-2000 ।

सुरेश कुमार 8430600एच अव (जैसे-834365एच)
—24-11-2000 ।

सत्येन्द्र प्रसाद सिंह 8430647एन अव (जैसे-834368
डब्ल्यू)—22-01-2001 ।

साहूकार शर्मा 8430425वाई अव (जैसे-834369)
—16-01-2001 ।

भगोमी लाल चौधरी 8430082एन अव (जैसे-
834370एन)—12-01-2001 ।

राजशेखरन के० 8025138एम अव (जैसे-834371
डब्ल्यू)—02-02-2001 ।

मनोज कुमार छेत्री 8430123एम अव (जैसे-
834372)—01-02-2001 ।

मनोज कुमार (8430139एम अव (जैसे-834373एफ)
—22-02-2001 ।

नयन सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता वरियता क्रमांक 01 से 13, 16 एवं 17 को 01 अक्टूबर 2000 से, क्रमांक 14 एवं 15 को 25 अक्टूबर 2000 से क्रमांक 18 को 17 नवम्बर 2000 से एवं क्रमांक 19 एवं 20 को 01 जनवरी 2001 से एवं क्रमांक 21 से 23 को 01 फरवरी 2001 से दी जाती है।

आर० एम० चौधरी, अवर सचिव

सं० 358, दिनांक 23 मई, 2001—राष्ट्रपति, महर्षि निम्नलिखित ए.एम.टी. अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन के पद पर (परब पर)

ए० के० जैन (एमआर-07245वाई); ए.एम.सी—
—05 फरवरी, 2001

रजत जैन (एमआर-07348के), ए.एम.सी—23 जून,
2000।

ए० सी० माता (एमआर-07243एन), ए.एम.सी—05
फरवरी, 2001।

एस० के० पुरी

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं० 359, दिनांक 17 मई 2001—राष्ट्रपति, महर्षि निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं—

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर में सर्जन रिडर एडमिरल के पद पर

व० सी० ओहरी (एमआर-2090एन) (75724 जेड)
ए.एम.टी/पी.सी—10-11-2000 (ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01-09-2000)।

मेजर जनरल जे० आर० भारद्वाज
अपर महानिदेशक

सं० 360 दिनांक 22 मई 2001—राष्ट्रपति अनुदेश 07/78, तथा उनमें किए गए संशोधन के अधीन राष्ट्रपति महर्षि निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

सैनिक दत्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

ले० कर्नल से कर्नल अथवा समकक्ष पद पर

एच० जी० गार्ग (डी० आर०-10290-डब्ल्यू) 23-6-2000-परन्तु कार्पनिक वरियता—01-5-2000 से दी जाती है।

एम० एम० मोहन (डी० आर०-10245पी) 01-6-2000 परन्तु कार्पनिक वरियता—01-6-2000 से दी जाती है।

आर० एन० तनेजा (डी० आर०-10291-डी) 22-6-2000 परन्तु कार्पनिक वरियता—01-6-2000 से दी जाती है।

थल सेना अनुदेश 15/79 तथा उनमें किए गए संशोधन के अधीन राष्ट्रपति महर्षि निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

सैनिक दत्त चिकित्सा कोर

(अल्पकार्बन कमीशन)

कैप्टन से अर्द्धस्थायी मेजर के पद पर

बल थिंदर सिंह (डी० एम०-11892-डी) 22-6-2001।

एस० के० सैनी (डी० एम०-11893-वाई) 22-6-2001।

विनीप कुमार (डी० एम०-11901-एम) 22-6-2001।

एम० के० जे०

ब्रिगेडियर

उप डी० जे० निदेशक

सं० 361, दिनांक 18 मई 01—राष्ट्रपति निम्नलिखित को पदोन्नत करते हैं—

स्थायी थल सेना : स्थायी कमीशन

स्थायी ब्रिगेडियर तो कि स्थायी में जनरल हागे —

एस० के० बाली (आई०सी०-1553), आर्टी—
10 अक्टूबर 2000।

अशोक कुमार (आई०सी०-13609),—इंफैंट्री महार,
1 नवम्बर 2000।

आर. एन. राधाकृष्णन (आई. सी.-15116) —
इन्जिनियर —1 दिसम्बर 2000

स्था. कर्मच. जा कि स्टाई प्रिगेडियर होंगे :-

एम. के. चारी (आई.सी.-17895) —इन्जिनियर
23 अप्रैल 1998

एम. के. मिश्रा (आई.सी.-16507) —ई. एम. ई.
1 जून 2000

एम. बी. प्रेम कुमार (आई.सी.-17543) ई.एम.ई.
1 जून 2000

एम. एम. कुलारी (आई.सी.-20065) —ई.एम.ई.
1 अगस्त 2000

एम. एम. नन्दा (आई. सी.-19578) —आर्टी
7 नवम्बर 2000

एम. ई. चयान (आई.सी.-16273) —आर्टी
30 नवम्बर 2000

एम. एन. शर्मा (आई. सी.-17891) —इन्जि-
नियर 1 दिसम्बर 2000

एम. बी. अर्जुन (आई. सी.-20042) —इन्जिनियर
2 दिसम्बर 2000

एम. ए. बाबा (आई. सी.-20674) —इन्जिनियर
3 दिसम्बर 2000

एम. ए. भास्करा (आई. सी.-21970) —आर्टी
1 जनवरी 2001

स्था. कर्मच. जा कि स्टाई प्रिगेडियर होंगे :-

एम. सी. पन्ना (आई. सी.-28506) —सिगनल्स
1 अक्टूबर 97 (नोन्सल. ऑफिस बिना धेतन तथा पेंशन पर
प्रभाव के)

सुधीर कुमार (आई. सी.-32516) —सिगनल्स
2 जून 2000

एम. के. गणगुली (आई. सी.-30614) —सिगनल्स
3 जून 2000

एम. सोनकी (आई. सी.-30641) —सिगनल्स
1 अगस्त 2000

एम. एम. बाबा (आई. सी.-27268) —सिगनल्स
7 नवम्बर 2000

एम. एन. मुद्दे (आई. सी.-30954) —ई. एम. ई.
30 नवम्बर 2000

प्रमोद बिन्हा (आई. सी.-24161) —ई. एम. ई.
1 दिसम्बर 2000

के. आर. सिंह (आई. सी.-29757) —ई. एम. ई.
4 दिसम्बर 2000

टी. एम. डोगरा (आई. सी.-29878) —ई. एम. ई.
5 दिसम्बर 2000

अजय कुमार

एस.सी.एम.ओ.

गु.आ.म.वि. / प्रकाश-5

स्थाई कमीशन

नौसेना कमीशन

सं. 362, दिनांक 22 मई, 01 —राष्ट्रपति नौसेना अध्यादेश
79 के 127 और रक्षा मंत्रालय पत्र सं. एन. सी./3066 एन
एच. क्यू/3182/डी (एन-2) दिनांक 10 जून 77 के अधीन
भारतीय नौसेना की इन्जिनियरिंग शाखा (नौसेना निर्माणा
कोर) में निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

नाम और व्यक्तिगत सं. सब. ले. में ले.

भारत व्याप्ति (41870-एच) —01-02-98

एम. पी. मैथ्यू (41871-के) —01-02-98

एस. विश्वनाथन (41872-एन) —16-01-98

एच. बहगुणा (41873-आर) —01-07-98

एम. ए. प्रदीप (41874-टी) —01-03-98

आर. कार्तिक (41875-डब्ल्यू) —01-04-98

के. आर. प्रियम (41876-वाई) —16-06-98

सी. आर. रेजिथ (41877-जेड) —01-07-98

ए. शंकर (41987-जेड) —16-6-99

आर. जयकुमार (41988-ए) —01-05-99

ए. कपूर (41989-बी) —01-02-99

एस. चड्ढा (41990-एफ) —16-02-2000

पी. आर. सुदर्शनन (41991-एच) —16-11-99

के. के. अरविन्द (41992-के) —01-01-99

पी. पंत (41993-एन) —01-01-99

एम. कुमार (41994-आर) —01-01-99

राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एम. पी./0421 एन
एच. क्यू/869/यू. एस.डी (एन-2) दिनांक 01 मई 89 और
टी. आर./0886/एल. एस. एस.पी. दिनांक 04 जून 93 के अधीन
भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में (मांश रिकी संयंत्र)
में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नौसेना शाखा

(स्थायी कमीशन)

सब. ले. में ले.

गौतम आनन्द (04546-एच) —16-11-98।

राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के पत्र सं० टी आर/8282 दिनांक 09 फरवरी 93 और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० एम पी/0491 एन एच क्यू/743/डी ओ/डी (एन-4) दिनांक 01 जुलाई 92 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (बायु यात यात नियंत्रण) में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नौसेना शाखा
अर्ध स्थायी कमीशन

नाम और व्यक्तिगत सं०	सब० ले० से ले०
एम टी जोरा (04586-वाई)	05-12-98
रामेश पी (04587-जैड)	05-01-99
आर सिंह (04588-ए)	05-08-98
बी वर्गीस (04589-बी)	05-01-99
पी पी कुमार (04590-एफ)	20-11-98
एस सुप्रिया (04591-एच)	20-12-98

2 ले० एच के तिरुमलसेनी (04465-वाई) को छोड़कर 25 सितम्बर 99 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना रद्द है।

आर खांगर (04462-आर)	22-10-97
एन के आनन्द (04463-टी)	07-09-97

सं० जे० ओ०/95 दिनांक—राष्ट्रपति भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (नौसेना विमानन संवर्ग) में नौसेना आदेश संख्या 56/80 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नौसेना शाखा
स्थायी कमीशन

कार्यकारी सब० ले० से सब० ले०	सब० ले० से ले०	वरीयता केवल
ए० रतना (04323-जेड)	22-06-97	23-06-97/16-7-97
आर जे थैलियथ (04492-एच) (सब० ले०)	01-01-96	20-12-98/16-06-98
मिडशिपमैन से कार्यकारी सब० ले० से सब० ले०		ले० वरीयता केवल
एन० एम० दलाल (03014-जेड)	25-08-86/01/07/86	01-07-87 16-12-88

राष्ट्रपति नौसेना आदेश 79 के 127 और रक्षा मंत्रालय पत्र सं० एन सी/3066 / एन एच क्यू/3182/ डी (एन-2) दिनांक 10 जून 77 के अधीन भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना विमानन कोर) में निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नौसेना शाखा

स्थायी कमीशन

नाम और व्यक्तिगत कार्यकारी सब० ले० से सं०	सब० ले० वरीयता केवल	सब० ले० से ले०
मनोज कुमार गोड (41453-के)	7-8-90/7-8-89	07-12-91

अशोक मलिक

एस सी एस ओ (जे ओ ए) एंड आर)

सेना शाखा

सं० 363, दिनांक 18 मई 01—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को कार्यमुक्त होने और अपना रैंक बनाये रखने की अनुमति देते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर एस के मोंगिया टी ए (एम)-1151 ए एम सी (टी ए)—30 नवम्बर 2000।

बी० एन० सिंह, जवर मन्चिय

सेना शाखा

सं० 364, दिनांक 17 मई 01—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों/अधिकारी को अधिवर्धित आयु ग्रहण करने पर सेना से नियुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। (बढ़ी हुई अवधि समेत)

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ए०बी०एम०के०टी० मित्रा (एम आर-1894) (वा सेना-23432) ए०एम०सी०/पी०सी० 31-05-2000 (अपराह्न)
ए०बी०एम० डी के० गुप्ता (एम०आर०-2114) (वा सेना 7257) ए०एम०सी०/पी०सी० 30-09-2000 (अपराह्न)
एयर कमांडोर आर सिंह (एम०आर०-2602) (वा सेना-9939) ए०एम०सी०/पी०सी० 31-05-2000 (अपराह्न)
एयर कमांडोर एस०पी० देशमुख (एम०आर०-2342) (वा सेना-9303) ए०एम०सी०/पी०सी० 31-05-2000 (अपराह्न)
ग्रुप कैप्टन आर आर कपूर (एम आर-2119) (वा सेना -11187) ए०एम०सी०/पी०सी० 31-5-2000 (अपराह्न)
ग्रुप कैप्टन एस सी श्रीवास्तवा (एम आर-3344) (वा सेना-11733) ए०एम०सी०/पी०सी० 31-07-2000 (अपराह्न)
ग्रुप कैप्टन एस एस बाबू (एम आर-2948) (वा सेना-12903) ए०एम०सी०/पी०सी० 01-07-2000 (अपराह्न)
ग्रुप कैप्टन जे डी भूटन (एम आर-4404) (वा सेना 12680) ए०एम०सी०/पी०सी० 30-09-2000 (अपराह्न)

मेजर जनरल जे आर भा.बाज
अपर महानिदेशक

दिनांक 18 मई 2001

संख्या 365—राष्ट्रपति निम्नलिखित को पदोन्नत करते हैं :—

स्वार्थ, जन्म सेवा : स्थायी कर्मिणन

संशोधन-पत्र

दिनांक 12 अगस्त 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेवा स्थायी कर्मिणन का शीर्षक :—

स्थायी कर्नल जो स्थायी ब्रिगेडियर होंगे :—

नाम के सामने	के लिये	पढ़ा जाये
एम० ए० मण्डारी (आईसी-17134) इन्जिनियर्स	23 अप्रैल 1998	24 अप्रैल 1998
जे० के० नरपाल (आईसी-16105) इन्जिनियर्स	01 मई 1998	13 मई 1998
आर राजमणि (आईसी-17537) ई एम ई	13 मई 1998	09 मई 2000

स्थायी ले० कर्नल जो स्थायी कर्नल होंगे

नाम के सामने	के लिये	पढ़ा जाये
ओमन जैन (आईसी-30275) ई० एम० ई०	28 अप्रैल 1998	04 मई 1998
के० के० मूर्ति (आईसी-30279) ई० एम० ई०	29 अप्रैल 1998	05 मई 1998
श्रीनिवासन अरुण (आईसी-30281) ई० एम० ई०	30 अप्रैल 1998	06 मई 1998
के० बी कपूर (आईसी-27595)	01 मई 1998	07 मई 1998
जे० पी० ए० चौहान (आईसी-27913) इन्जिनियर्स	02 मई 1998	08 मई 1998
ए० एल० आनन्द (आईसी-32286) सिगनल्स	03 मई 1998	09 मई 1998
टी० रमेश्वर (आईसी-25437) सिगनल्स	04 मई 1998	10 मई 1998
एम० कालरा (आईसी-25462) ई० एम० ई०	05 मई 1998	01 मई 1998
आर० मक्सेना (आईसी-25566) ई० एम० ई०	05 मई 1998	01 मई 2000

दिनांक 30 नवम्बर 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेवा स्थायी कर्मिणन का शीर्षक स्थायी कर्नल से स्थायी ब्रिगेडियर के रैंक में दीपक आनन्द (आईसी-16057) इन्जिनियर्स के नाम के सामने :—

24-4-1998 के स्थान पर

01-5-1998 पढ़ा जाए

संशोधन पत्र

दिनांक 04 जुलाई 1998 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेवा स्थायी कर्मिणन उपशीर्षक :—

स्थायी ले० कर्नल जो स्थायी कर्नल होंगे

नाम के आगे	के स्थान पर	पढ़ा जाये
ए०पी०एस० गिल (आईसी-28711) ए०ओ०सी०	23 अक्टूबर 97	01 नवम्बर 1997
आर० आर० मूर्थी (आईसी-28759) इन्जिनियर्स	01 नवम्बर 97	02 नवम्बर 1997
एच० एस० अरोड़ा (आईसी-29144) ई०एम०ई०	02 नवम्बर 97	03 नवम्बर 1997
जे० एम० डिल्लो (आईसी-29685) ई०एम०ई०	04 नवम्बर 97	28 अप्रैल 1998
जे० के० कोशिक (आईसी-29886) ई०एम०ई०	01 दिसम्बर 97	29 अप्रैल 1998
बी० आर० हान्डा (आईसी-25267) ई०एम०ई०	01 जनवरी 98	30 अप्रैल 1998
टी० पी० सिंह (आईसी-30251) ई०एम०ई०	01 फरवरी 98	02 मई 1998
आई० आर० मोनादान (आईसी-30255) ई०एम०ई०	02 फरवरी 98	03 मई 1998

अजय कुमार, एस०सी०ए०ओ०, गुआगति (प्रशासन-5)

ARMY BRANCH

No. 350, dated 23rd May 2001.—The President is pleased to make the following appointment under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lt (On Prob)

20 Jag Timothy, MBBS (MR 07507-K) AMC, 04 Nov

S K PURI
Brig
Dy DGAFMS (P)

No. 351, dated 22nd May 2001.—The President is pleased to make the following appointment (DPG/SSG) under AI 37/78 as amended vide AI 4/96.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(DIRECT PERMANENT COMMISSION)

To be Lieut (On Probation)

C S Chaudhary (DR-10517-Y), 19-10-2000 (F/N),
BD 3 (Goa)

R. K. SETHI
Brig
Dy. DG DS

No. 352, dated 18th May 2001.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned GCs of 90 TGC course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94 for TGC course :—

TMA No., Name, SS No., ARM/Service & Date of SSC on Probation

90 Technical Graduates Course

T/5783 Satpal Singh 38829L Sigs, 13 Jan 2000.

T/5784 Upadhyay Rajesh Ramkrishna 38830A Sigs, 13 Jan 2000.

T/5786 Anup Gusain 38831H Sigs, 13 Jan 2000.

T/5787 Kuldeep Singh 38832L Sigs, 13 Jan 2000.

T/5788 Akshay Baloria 38833N EME, 13 Jan 2000.

T/5789 Anil Gaur 38834W Sigs, 13 Jan 2000.

T/5790 Pankaj Garg 38835Y EME, 13 Jan 2000.

T/5792 Shridhar S Nerali 38837K EME, 13 Jan 2000.

T/5794 B Satyanarayan 38838M Sigs, 13 Jan 2000.

T/5795 Karamvir Singh Gill 38839P EME, 13 Jan 2000.

2 T/5796 Ganam Gyananda Singh 38840K FME, 17 Jan

T/5797 Singh Yogwardhan Brahmakumar 38841M EME, 13 Jan 2000.

T/5798 Gayandeep Singh Bhatia 38842P EME, 13 Jan 2000.

T/5799 Bhanu Prasad Chandra 38843N Sigs, 13 Jan 2000.

T/5800 Plaban Gogoi 38844A EME, 13 Jan 2000.

T/5801 Sumesh Sharma 38845H Sigs, 13 Jan 2000.

T/5803 Vitender Kang 38846N Sigs, 13 Jan 2000.

T/5805 Indraneel Ghosh 38848W FME, 13 Jan 2000.

T/5806 Bhagwan Prakash Devedhi 38849Y Sigs, 13 Jan 2000.

T/5807 Davinder Singh Jaswal 38850N Sigs, 13 Jan 2000.

T/5808 Uday Thorat 38851W EME, 14 Jan 2000.

T/5809 Shiv Kumar Singh 38852Y EME, 13 Jan 2000.

T/5810 Ramandeep Singh 38853Z EME, 13 Jan 2000.

T/5812 Kapil Yadav 38855M Sigs, 13 Jan 2000.

T/5815 Sushant Kumar Mishra 38858A Engrs, 13 Jan 2000.

T/5816 Vaibhav Trivedi 38859B Engrs, 13 Jan 2000.

T/5819 Veeresh Sharma 38860C Engrs, 13 Jan 2000.

T/5821 Ganav Puthak 38861N Sigs, 13 Jan 2000.

T/5822 Amit Tandon 38865W EME, 13 Jan 2000.

T/5826 Sanjay Pillai 38867F Sigs, 13 Jan 2000.

T/5827 Srikanth Bhargava 38868J Engrs, 13 Jan 2000.

T/5828 Ashwani Kumar Srivastava 38869M Engrs, 13 Jan 2000.

T/5829 Sawan Taluja 38870F Engrs, 13 Jan 2000.

T/5830 Agnivesh Pandey 38871K Sigs, 13 Jan 2000.

T/5831 Ajay Kumar 38872M Engrs, 13 Jan 2000.

T/5832 Arunsekhar C 38873P Engrs, 13 Jan 2000.

T/5835 Sarad Prasad Rauf 38875A Engrs, 16 Jan 2000.

T/5839 Sumit Vaid 38879W Engrs, 13 Jan 2000.

T/5841 KS Rajasekhar Reddy 38880L Engrs, 23 Jan 2000.

T/5842 Anurag Saxena 38881N EME, 23 Jan 2000.

T/5843 Asim Vincent Niral Surin 38882W Sigs, 31 Jan 2000.

T/5845 Deepak Palande 38883Y Engrs, 03 Feb 2000.

T/5846 Shashi Shrivastava 38884F Sigs, 31 Jan 2000.

T/5849 Shukla Amit Pradip 38886M Sigs, 23 Jan 2000.

T/5851 Shah Anand Natavarlal 38888X Engrs, 03 Feb 2000.

T/32768 Vinay Singh Shelshawar 38889 Engrs, 05 May 2000.

The undermentioned GCs of 87 TGC course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94 :—

IMA No., Name, SS No., ARM Service and Date of SSC On Probation

87 Technical Graduates Course

T/3662 Ningthoujam Birenba Singh 37886A Sigs, 25 Jul 98.

T/31387 Padil Vivek Shastri 37889N EME, 09 Nov 98.

ARMY BRANCH

No. 356, dated 23rd May, 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Itendra Singh (JC-180413K), 07 Sep 2000/01 Sep 2000.*

Subedar Bhim Singh (JC-200423X), 01 Sep 2000

Subedar Om Prakash (JC-200452M), 01 Oct 2000.

Subedar Virendra Singh (JC-193505P), 01 Oct 2000

Subedar Satya Pal (JC-214415K), 01 Oct 2000.

Subedar Bhanudas Nathu Lokhande (JC-211854K), 17 Jan 2001/01 Dec 2000.*

Subedar Sumer Singh (JC-190696K), 03 Jan 2001/01 Dec 2000.*

Subedar Daya Ram (JC-203509F), 12 Jan 2001/01 Dec 2000.*

Subedar Iala Ram (JC-186470F), 03 Jan 2001/01 Dec 2000.*

Subedar Bahadur Singh (JC-195114H), 22 Dec 2000/01 Dec 2000.*

Subedar Sube Singh (JC-200147A), 13 Dec 2000/01 Dec 2000.*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Rajbir (JC-257324N), 29 Sep 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Som Dutt (JC-257765A), 01 Oct 2000/04 Sep 2000/01 Oct 2000.*

Nb Sub Purushothaman VK (JC-258271M), 07 Oct 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Virpal Singh (JC-258263N), 26 Sep 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Pritam Chand (JC-258257A), 04 Oct 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub T Samiappan (JC-257768X), 27 Sep 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Dharmbir Singh (JC-258256X), 04 Sep 2000

Nb Sub Baldev Chand (JC-257763Y), 25 Sep 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Rajvir Singh (JC-258259L), 30 Sep 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Roshan Lal (JC-258258H), 25 Sep 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Udaya Kumar (JC-258261H), 13 Oct 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Amar Singh Negi (JC-258269P), 29 Sep 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Surender Singh Hanjra (JC-257862F), 09 Sep 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Hare Ram Sah (JC-258273X), 29 Sep 2000/04 Sep 2000.*

Nb Sub Kulbir Singh (JC-258274A), 15 Oct 2000/01 Oct 2000.*

Nb Sub Patil Anil Kumar Ganpat (JC-257764F), 11 Oct 2000/01 Oct 2000.*

Nb Sub Raghunath Singh Shekhawat (JC-258270K), 11 Oct 2000/01 Oct 2000.*

Nb Sub Raman Lal (JC-258265Y), 01 Oct 2000

Nb Sub Pahl Atun Dhyandeo (JC-258268M), 1 Nov 2000.

Nb Sub Rajendu Prasad Rai (JC-258266F), 01 Nov 2000

Nb Sub Joginder Singh Yadav (JC-258264W), 09 Nov 2000/01 Oct 2000.*

Sb Sub V Vijaya Ravi Kumar (JC-258272P), 27 Dec 2000/01 Nov 2000.*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Hiren Chandie Iaskar (JC-256645Y), 14 Feb 2000/01 Jan 2000.*

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-261592P), 19 Aug 2000/02 Feb 2000.*

Nb Sub Kulbinder Singh (JC-256117P), 09 Nov 2000/01 Aug 2000.*

Nb Sub Babur Singh (JC-256956M), 16 Nov 2000/01 Aug 2000.*

Nb Sub Manoharan Kottam Tharammal (JC-256912P), 11 Oct 2000/01 Aug 2000.*

Nb Sub Ronanki Kurmaiah (JC-257529H), 04 Sep 2000/01 Aug 2000.*

Nb Sub Shakti Singh (JC-258214L), 17 Oct 2000/01 Aug 2000.*

Nb Sub Rama Nand (JC-259556L), 20 Dec 2000/01 Aug 2000.*

Nb Sub Mangtu Ram (JC-259624N), 08 Aug 2000/01 Aug 2000.*

Nb Sub I Rajkumar Singha (JC-261086K), 13 Nov 2000/01 Aug 2000.*

Nb Sub Om Dutt (JC-261532A), 17 Oct 2000/01 Aug 2000.*

Nb Sub Prakash Singh (JC-259641N), 03 Oct 2000/16 Aug 2000.*

Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-259493N), 22 Nov 2000/20 Aug 2000.*

Nb Sub Janardhanan KV (JC-257024M), 26 Feb 1999/01 Aug 1997.*

Nb Sub Mahendra Singh Yadav (JC-260233P), 14 Jan 1999/01 Sep 1998.*

Nb Sub Jagmal Singh (JC-226543N), 12 Dec 1999/01 Sep 1998/01 Sep 1998.*

Nb Sub Ram Chandia Singh Yadav (JC-256597K), 12 Oct 1999/01 Sep 1998.*

Nb Sub Mohan Rao Donga (JC-256821L), 15 Mar 2000/01 Sep 1998.*

Nb Sub Partap Singh (JC-257124X), 25 Jan 2000/01 Sep 1998.*

Nb Sub Man Singh (JC-255184N), 10 May 1999/01 Jan 1999.*

Nb Sub Rajasekaran G (JC-256482W), 08 Jun 2000/01 Jun 1999.*

Nb Sub Bala Saheb Vithal Pokharkar (JC-258082H), 15 Sep 2000/01 Jul 1999.*

Nb Sub Satyapal Singh Yadav (JC-258068W), 03 Mar 2000/01 Sep 1999.*

Nb Sub Subhash Chander (JC-260828M), 03 Feb 2000/01 Sep 1999.*

Nb Sub Sivadasan PK (JC-257398H), 28 Jun 2000/01 Oct 1999.*

Nb Sub Kulwant Singh (JC-259643Y), 14 Sep 2000/01 Oct 1999.*

Nb Sub Sukhwant Singh (JC-258308H), 19 Dec 1999/01 Nov 1999.*

Nb Sub Suresh Sadhu Gini (JC-261049W), 20 Feb 2000/07 Dec 1999.*

Nb Sub Joga Singh (JC-255143K), 26 Jul 2000/12 Dec 1999.*

Nb Sub Darshan Singh (JC-259170I), 26 Jun 2000/25 Dec 1999.*

Nb Sub Subhram Singh Yadav (JC-257772A), 08 Jul 2000/26 Feb 2000.*

Nb Sub S Mani (JC-256659Y), 01 Mar 2000.

Nb Sub Om Prakash (JC-256582F), 01 Dec 2000/01 Apr 2000.*

Nb Sub Satybir Singh (JC-257037K), 20 Oct 2000/01 Apr 2000.*

Nb Sub Madusudanan P (JC-258028P), 28 Jun 2000/01 Apr 2000.*

Nb Sub Radhakrishnan KR (JC-258194H), 11 Jul 2000/01 Apr 2000.*

Nb Sub A Palani Swamy (JC-258149W), 01 Jun 2000/01 Apr 2000.*

Nb Sub Shingara Singh (JC-258398P), 05 Jul 2000/01 Apr 2000.*

Nb Sub Biddappa GP (JC-259098A), 05 Jun 2000/01 Apr 2000.*

Nb Sub G Venugopal (JC-260771I), 30 May 2000/01 Apr 2000.*

Nb Sub Sombir Singh (JC-256716P), 18 Oct 2000/21 Apr 2000.*

Nb Sub Rajbir Singh (JC-259589W), 23 May 2000/01 May 2000.*

Nb Sub Ashok Zingaji Tambde (JC-257936L), 09 Aug 2000/19 Jun 2000.*

Nb Sub Vinod Prasad Singh (JC-259203L), 03 Jul 2000/01 Jul 2000.*

Nb Sub Ompal Singh (JC-259660Y), 04 Aug 2000/01 Jul 2000.*

Nb Sub Ram Niwash (JC-260637X), 17 Dec 2000/03 Jul 2000.*

Nb Sub Rajinder Singh (JC-256918W), 25 Oct 2000/15 Jul 2000.*

Nb Sub Rattan Singh (JC-258111N), 20 Oct 2000/15 Jul 2000.*

Nb Sub Mohanan Nair G (JC-261740P), 07 Dec 2000/15 Jul 2000.*

Nb Sub Paradeshi Shahaji Sukhadeo (JC-261857N), 11 Oct 2000/19 Jul 2000.*

Nb Sub R Shanmugam (JC-261010K), 13 Nov 2000/20 Jul 2000.*

Nb Sub Massa Singh (JC-226599A), 11 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Mehanga Singh (JC-257027A), 29 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Ranbir Singh (JC-257074X), 24 Sep 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-257818X), 01 Sep 2000.

Nb Sub Unni KD (JC-257489M), 17 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Bheema Naik (JC-258575K), 05 Sep 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Uthaman NS (JC-259873M), 01 Sep 2000.

Nb Sub Mahipal Singh (JC-259677M), 31 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub G Gunasekaran (JC-259904F), 31 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Gian Singh (JC-260581W), 31 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Bagade Gajanan Haribhan (JC 261843N), 17 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Pashu Pati Nath Singh (JC-260922W), 10 Nov 2000/03 Sep 2000.*

Nb Sub Hari Prem (JC-258447M), 26 Sep 2000/06 Sep 2000.*

Nb Sub Rabindra Bist (JC-261605F), 22 Nov 2000/21 Sep 2000.*

To be Substantive Subedar (ATG)

Nb Sub Ram Kumar Sharma (JC-257863K), 15 Jan 2001/01 Nov 2000.*

Nb Sub Venu Kumar K (JC-258275H), 01 Nov 2000.

Nb Sub Madhava MA (JC-258567L), 15 Dec 2000/01 Dec 2000.*

Nb Sub Vijaya Karnavar N (JC-258914Y), 01 Jan 2001.

Nb Sub Mahabir Singh (JC-258915F), 01 Jan 2001.

Nb Sub Satheesh Babu R (JC-258916K), 10 Feb 2001/01 Feb 2001.*

Nb Sub Jankar Singh (JC-258917M), 07 Feb 2001/01 Feb 2001.*

Nb Sub Suriyan RU (JC-258918P), 12 Feb 2001/01 Feb 2001.*

Nb Sub Vijay Kumar Saini (JC-203561K), 24 Feb 2001/01 Feb 2001.*

To be Naib Subedar

Hav Ram Karan Singh (14457274N now JC-263291K), 27 Oct 2000/26 Jul 99.*

Hav G Ganesan (14459880H now JC-263292M), 28 Jun 2000/01 Sep 99.*

Hav Shicepal Sangami (14473581P now JC-263293R), 04 Aug 2000/01 Apr 2000.*

Hav Krishan Kumar (14332575X now JC-263294X), 27 Oct 2000/21 Apr 2000.*

Hav Lalan Singh Yadav (15111653H now JC-263295A), 23 Sep 2000/01 Jun 2000.*

BHM Bhajan Lal (14479240A now JC-263296H), 19 Sep 2000/15 Jun 2000.*

Hav Krishna Moorthy C (14366799K now JC-263297I), 04 Nov 2000/30 Jun 2000.*

Hav Rup Chand (14350049F now JC-263298N), 20 Oct 2000/25 Jul 2000.*

The undermentioned GCs of 87 TGC and 07 UES course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94 for TGC course and AI 2/93 as amended vide AI 12/96 for UES course :—

IMA No., name, SS No., ARM/Service and Date of SSC on Probation

87 Technical Graduates Course

T/5592 Samrat Mohanta 37823K SIGS, 16 Jul 98.
T/5616 Deepak Raj M 37844N EME, 16 Jul 98.
T/5622 Udayan Basu 37847F ENGRS, 16 Jul 98.
T/5665 Kulbir Singh 37887H ENGRS, 10 Aug 98.

07 University Entry Scheme Course

U/122 Rohit Sharma 37897M EME, 02 Jul 97.
U/193 Rahul Jayant 37905A SIGS, 09 Jul 97.
U/183 Harkamal Singh 37941L EME, 11 Aug 97.
U/190 Nandini Singh 37948P EME, 11 Jan 98.
U/206 Vipay Rao 37958Y EME, 11 Jun 98.

The undermentioned GC of 86 TGC course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the provisions of SAI 1/S/94 for GCs of TGC course :—

Amardeep Singh (SS-37437L) Engrs, 15 Jan 98.

PERMANENT COMMISSION

1. The undermentioned Gentlemen Cadets of 87 TGC and 07 UES course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 12 Jan 99 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94 (TGC) and AI 2/93 amended vide AI 12/96 (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Jan 97 under SAI 1/S/94 for GCs of TGC course and AI 2/93 amended vide AI 12/96 for GCs of UES course :—

T/31387 Padir Vivek Shankarrao (IC-58943K) Engrs with the seniority below T/5645 Umesh Kumar Mehta (IC-58942F) EME, T/5662 NINGTHOUJAM Birendro Singh (IC-58997L) Engrs with the seniority below T/5648 Sajjan Singh (IC-58996H) EME whose names have been published in the Gazette of India dated 29 Jan 2000.

1. The undermentioned Gentlemen Cadets of 90 TGC and BA UES course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 09 Dec 2000 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94 (TGC) and AI 2/93 amended vide AI 12/96 (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 13 Dec 1998 under SAI 1/S/94 for GCs of TGC course and AI 2/93 amended vide AI 12/96 for GCs of UES course :—

IMA No., Name, JC No. and ARM/SERVICE

T/3831 Ajay Kumar 61162F ENGRS.
T/5795 Karmvir Singh Gill 61163K ENGRS.
T/5783 Satpal Singh 61164M SIGS.
T/5826 Sanjay Pillai 61165P SIGS.
T/5797 Singh Yogwardhan Brahma Kumar 61166X ENGRS
T/5849 Amit Pradip Shukla 61167A SIGS.
T/5827 R Srikanth Bhargava 61168H EME.
T/5806 Viney Singh Shekhawat 61169L ENGRS.

3-114 GI/2001

T/5771 Harpreet Singh Sikka 61170A BME.
H/230 Kashlendra Bahadur Singh 61171H BME.
U/238 Shailesh Bansal 61172L ENGRS.
T/5808 Uday Thorat 61173N EME.
T/5786 Anup Gusain 61174W SIGS
T/5788 Akshay Baloria 61175Y EME.
T/5819 Veeresh Sharma 61177K ENGRS.
T/5839 Sumit Vaid 61178M ENGRS.
T/5784 Rajesh Ramkrishna Upadhyay 61179P SIGS.
T/5845 Deepak Palande 61180K ENGRS.
T/546 Shashi Shrimat 61181M SIGS.
T/5835 Sarad Prasad Raut 61182P EME.
T/5807 Davinder Singh Jaswal 61183X EME.
T/5801 Sumesh Sharma 61184A EME.
T/5828 Ashwani Kumar Shrivastav 61185H EME.
T/5794 B Satyanarayan 61186L EME.
T/5830 Agnivesh Pandey 61187N SIGS.
T/5815 Sushant Kumar Mishra 61188W EME.
T/5789 Amit Gaur 61190N SIGS.
T/5816 Valbhav Trivedi 61192Y EME.
T/5822 Amit Tandon 61193F ENGRS.
T/5806 Bhagwan Prakash Dwivedi 61194 BME.
U/240 Vishal Singh 61197X ENGRS.
T/5799 Bhanu Pratap Chand 61198A SIGS.
T/5787 Kuldeep Singh 61199H EME.
T/5841 K S Rajasekhar Reddy 61200M ENGRS.
T/5821 Gaurav Pathak 61201P SIGS.
T/5796 Chanam Gyananda Singh 61202X ENGRS.
T/5803 Virender Kang 61203A SIGS.
T/5798 Gagandeep Singh Bhatia 61204H ENGRS.
T/5753 Bipreet Singh Cheema 61205L SIGS.
T/5800 Plaban Gogoi 61207W ENGRS.
T/5812 Kapil Yadav 61208Y EME.
T/5829 Suman Talwar 61209F ENGRS.
T/5790 Pankaj Garg 61210W EME.
T/5851 Shah Anand Natyarlal 61211W EME.
T/5805 Indraneel Ghosh 61212F EME.
T/5832 Arunsekhar C 61214M ENGRS.
T/5842 Anurag Saxena 61215P EME.
T/5810 Ramandeep Singh 61217A EME.
T/5843 Asim Vincent Niral Surin 61218H SIGS.
T/5792 Shridhar S Nerali 61219L EME.
T/5809 Shiv Kumar Singh 61221H EME.

2. The following officers are also grant permanent commission wef 09 Dec 2000 in the rank of Lt under the terms and conditions of AI 105/61:—

T/5844 Rajesh Benda 61189Y AEC.
T/5840 Rajiv Guleria 61206N AEC.
T/5793 Sahdev Singh Raizada 61213K AEC.

T/5833 Deepak Singh 61216X AEC.

T/5780 Abhishek Jha 61222L AEC.

The undermentioned Gentlemen Cadets of 87 TGC course are granted permanent commission in the rank of Lt wef 12 Jun 99 (F/N) under the terms and conditions of AI 105/61 :—

T/5617 Bhupender Kumar AEC with the seniority above T/5615 Shreyash Nitin Mehta (IC-59000X) AEC, T/5664 Biranchi Narayan Nayak (IC-59042K) AEC with the seniority below T/5615 Shreyash Nitin Mehta (IC-59000X) AEC whose names have been published in the Gazette of India dated 29 Jan 2000.

S. C. SHARAN
Major
AMS BB

No. 353, dated 17th May, 2001.—The President is pleased to make the following appointments :—

TERRITORIAL ARMY
(TERRITORIAL COMMISSION)

To be Lt

Arun Kumar Sharma (TA-42467), Sigs, 04 Aug 2000.

R Senthil Kumar (TA-42480), Engrs, 05 Sep 2000.

Sunil Gautam (TA-42484), Sigs, 11 Nov 2000.

Khelawan Singh Verma (TA-42485), Engrs, 27 Nov 2000.

B. N. SINGH
Under Secy.

(NAVY BRANCH)

No. 354, dated 22nd May, 2001.—The President is pleased to make the following appointments :—

PERMANENT COMMISSION

SPECIAL DUTY LIST

Sl. No., Name and Personal Number & Date of Commission
Sub Lts

- (a) (SD-W) B Suresh Kumar (89130-T), 01-10-96.
- (b) (SD-W) Albert Gomes (89131-W), 01-10-96.
- (c) (SD-R) Vijay Kaushik (87618-F), 01-10-96.
- (d) (SD-SW) Dayand (86367-N), 01-10-96.
- (e) (SD-AE) Heer Singh (86066-B), 01-10-96.
- (f) (SD-AV) Ramesh Sharma (84627-H), 01-10-96.
- (g) (SD-AV) Darshan Lal (84626-F), 01-10-96.
- (h) (SD-REG) Mahipal Singh (83981-R), 01-10-96.
- (i) (SD-C) Suresh Kumar (82031-H), 01-10-96.
- (k) (SD-C) Ramesh M Parayil (82032-K), 01-10-96.
- (l) (SD-AV) Manmohan Gugalia (84628-K), 01-04-97.
- (m) (SD-AV) A Sahas (84629-N), 01-4-97.
- (n) (SD-W), Surendra Singh (89132-Y), 01-04-97.
- (o) (SD-S) Satish Kumar (88610-K), 01-04-97.
- (p) (SD-CA) KC Behra (89524-N), 01-04-97.
- (q) (SD-SW) P M Patnaik (86368-R), 01-04-97.
- (r) (SD-ME), MC Joshi (85110-F), 01-04-97.
- (s) (SD-R) Jaib Singh (87619-H), 01-04-97.

- (t) (SD-R) Rampal Yadav (87620-K), 01-04-97.
- (u) (SD-R) Arvinder Singh (87621-N), 01-04-97.
- (v) (SD-R) RS Bisht (87622-R), 01-04-97.
- (w) (SD-AR) RM Sharma (88334-H), 01-04-97.

A. K. MALIK
SCSO (JOA & R/DOP)

AIR HEADQUARTERS

No. 355, dated 23rd May, 2001.—The President is pleased to appoint the following Assistants of AFHQ Civil Service as officiating Assistant Civilian Staff Officers under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 with effect from the date mentioned against each to 23 Aug 2001 or till such time the individual retires or till regular incumbents become available, whichever is earlier :—

Sl. No., Name & Date from which appointed as ACSO

- (a) G S Bhogal, 26 Feb 2001.
- (b) Inder Singh Sandhu, 26 Feb 2001.
- (c) Yashraj Singh 26 Feb 2001.
- (d) Manjit Singh, 26 Feb 2001.
- (e) Dharmvir, 26 Feb 2001.
- (f) D K Sharma, 26 Feb 2001.
- (g) Om Prakash Sharma, 26 Feb 2001.
- (h) Naresh Kumar Jaiswal, 26 Feb 2001.
- (j) Sant Shah Singh (Chawla), 26 Feb 2001.
- (k) Bishamber Nath Kalra, 26 Feb 2001.
- (l) Jagpal Singh Saint, 26 Feb 2001.
- (m) Chhajju Ram Sharma, 26 Feb 2001.
- (n) Man Mohan Sharma, 26 Feb 2001.
- (o) Hakim Chand, 26 Feb 2001.
- (p) A K Pathak, 26 Feb 2001.
- (q) S C Agarwal, 26 Feb 2001.
- (r) Ram Singh Verma, 26 Feb 2001.
- (s) G S Gill, 26 Feb 2001.
- (t) Bhikari Lal, 26 Feb 2001.
- (u) J N Sharma Rasik, 26 Feb 2001.
- (v) R P Bhatia, 26 Feb 2001.
- (w) Krishan Gopal Yadav, 26 Feb 2001.
- (x) Paviter Singh, 05 Mar 2001.
- (y) P S Bisht, 26 Feb 2001.

These appointments are made purely as stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer

BHM Thennarasu N (14454860L now JC-263299W), 13 Oct 2000/26 Jul 2000.*

Hav Ranjit Singh (14459089Y now JC-263300A), 13 Nov 2000/19 Aug 2000.*

Hav Mansaram Saren (14336326W now JC-26330111), 17 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Hav Kalucharan Tarai (14480801W now JC-263302L), 14 Nov 2000/01 Sep 2000.*

Hav Raj Singh (14342025H now JC-263303N), 31 Oct 2000/08 Sep 2000.*

RHM Rajmal (14335820A now JC-263304W), 21 Oct 2000/01 Oct 2000.*

Hav Bhagra Ram (14457782K now JC-263305Y), 09 Oct 2000/01 Oct 2000.*

Hav Muralidaran (14482379H now JC-263306F), 30 Oct 2000/01 Oct 2000.*

To be Naib Subedar

BHM Saibjit Singh (14336310H now JC-263307K)—18 Sep 2000/01 April 98.*

Hav Ram Singh (14350229K now JC-263308M)—31 Aug 2000/30 Nov 99.*

BHM Man Singh Chouhan (14340557K now JC-263309P)—24 Nov 2000/01 Apr 2000.*

BHM Pawar Shahaji Shivaji (14465160X now JC-263310K)—30 Oct 2000/19 Jun 2000.*

Hav Mohan Singh Thapa (14152261P now JC-263311M)—10 Sep 2000/01 Jul 2000.*

Hav Ningappa Turai (14456594W now JC-263312P)—15 Sep 2000 05 Jul 2000.*

Hav Bibhuti Bhushan Nath (14476555Y now JC-263313X)—20 Oct 2000/22 Jul 2000.*

BHM Balam Singh Dongwal (144655731 now JC-263314A)—08 Nov 2000/31 Jul 2000.*

Hav Mahinder Singh (14330063L now JC-26331511)—13 Nov 2000/31 Jul 2000.*

Hav Dinde Shivaji Narayan (14372964A now JC 263316L)—30 Oct 2000/23 Aug 2000.*

Hav Shish Kam (14452089W now JC-263317N)—15 Nov 2000/01 Sep 2000.*

Hav Nathu Ram (14343606M now JC-263318W)—08 Nov 2000/01 Sep 2000.*

BHM Raj Narain Tripathi (14458381F now JC-263319Y)—02 Dec 2000/01 Oct 2000.*

Hav Drig Vijay (14477505A now JC-263320N)—06 Nov 2000/01 Oct 2000.*

Hav Kumbh Singh (14330113M now JC-263321W)—31 Oct 2000/01 Oct 2000.*

BHM Ram Sankar Prasad (14480047A now JC-263322Y)—07 Dec 2000/08 Oct 2000.*

*(Granted seniority wef)

CORPS OF AD ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Padam Singh (JC-169923L)—02 Dec 2000 01 Dec 2000.*

Subedar Bans Gopal Shatma (JC-175300X)—01 Dec 2000.*

Subedar Pappala Gandhi (JC-195040Y)—26 Feb 2001/01 Jan 2001.*

Subedar Mukundan Nair P (JC-187619K)—10 Jan 2001/01 Jan 2001.*

Subedar Vijay Nath (JC 179212Y)—01 Feb 2001/01 Jan 2001.*

Subedar Valcela B (JC-195045X)—06 Feb 2001/01 Feb 2001.*

Subedar Mohan Singh Negi (JC-179227F)—01 Feb 2001.*

To be Substantive Subedar Major (TIFC)

Subedar Sukhdev Singh (JC-169966A)—01 Mar 2001/01 Feb 2001.*

Subedar Dharam Pal (JC-169782F)—01 Mar 2001.*

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Subedar Sube Singh Yadav (JC-150361K)—07 Feb 2001/01 Jan 2001.*

Subedar Des Raj Guleria (JC-144302F)—09 Feb 2001/01 Feb 2001.*

To be Substantive Subedar Major (CLK)

Subedar Jarnail Singh (JC-200388A)—02 Feb 2001/01 Feb 2001.*

To be Substantive (Subedar (GD)

Nb Sub Nitya Bhushan Nath (JC-296722L)—03 Jan 2001/30 Jun 2000.*

Nb Sub A Rajendran (JC-297304H)—08 Nov 2000/01 Jul 2000.*

Nb Sub A Muthaya Raj (JC-296485M)—03 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Arjun Sopan Bhosle (JC-296714M)—30 Oct 2000/01 Sep 2000.*

Nb Sub Upinder Chand Katoch (JC 297033W)—05 Dec 2000/16 Sep 2000.*

Nb Sub Jiwat Giri (JC-296995N)—01 Oct 2000.*

Nb Sub Jagmal (JC-296643W)—01 Jan 2001/01 Nov 2000.*

Nb Sub Pushkar Singh (JC 296629K)—13 Feb 2001/01 Nov 2000.*

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-296646K)—01 Nov 2000.*

Nb Sub Patil Angad (JC-296921Y)—25 Jan 2001/01 Nov 2000.*

Nb Sub Vishram Singh (JC-296952Y)—03 Nov 2000/01 Nov 2000.*

Nb Sub Surendran K (JC-296975K)—25 Jan 2001/01 Nov 2000.*

Nb Sub Akhilesh Kumar Sharma (JC-297274W)—10 Nov 2000/01 Nov 2000.*

Nb Sub Radhe Kumar (JC-297312F)—01 Nov 2000.*

Nb Sub Parama Nand (JC-296984F)—18 Dec 2000/01 Dec 2000.*

Nb Sub Srikanth Singh (JC-297247M)—12 Feb 2001/01 Jan 2001.*

Nb Sub V Philip (JC-296996W)—04 Feb 2001/01 Feb 2001.*

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Rishipal Singh (JC-296091N)—01 Jan 2001.*

Nb Sub Om Prakash Swami (JC-296407P)—24 Feb 2001/01 Feb 2001.*

Nb Sub Madan Prasad Yadava (JC-296476L)—05 Mar 2001/01 Mar 2001.*

Nb Sub Khyali Singh (JC-296574L)—05 Mar 2001/01 Mar 2001.*

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Ram Daresh Mahto (JC-296913A)—23 Feb 2001/23 Jan 2001.*

Nb Sub Kamala Nathan C (JC-296910M)—16 Feb 2001/23 Jan 2001.*

Nb Sub Surendra Singh (JC-297346P)—24 Feb 2001/23 Jan 2001.*

Nb Sub Jogi Ram (JC-297227Y)—22 Feb 2001/23 Jan 2001.*

Nb Sub Dharam Singh Yadav (JC-297243W)—24 Feb 2001/23 Jan 2001.*

Nb Sub Kishori Lal (JC-297293F)—02 Mar 2001/01 Feb 2001.*

Nb Sub Rajinder Kumar Sharma (JC-297295M)—02 Mar 2001/01 Feb 2001.*

To be Substantive Subedar (CLK)

Nb Sub Piafulla Kumar Sundaray (JC-296203H)—21 Jan 2001/01 Dec 2000.*

Nb Sub Pabitra Mohan Sahoo (JC-296251H)—14 Feb 2001/01 Feb 2001.*

Nb Sub Sarjit Singh (JC-296272Y)—19 Feb 2001/01 Feb 2001.*

Nb Sub Balbir Singh Nugal (JC-296273F)—01 Mar 2001/18 Feb 2001.*

*(Gtd ante-date seniority wef)

R. CHATURVEDI, Under Secy.

No. 357, dated 21st May 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY POSTAL SERVICE CORPS

Wo to be Nb Sub/Clk (Postal)

1. Hans Raj, 8368909-N Now (JC-834351-H)—18-01-01.
2. Balram Singh, 8371010-K Now (JC-834352-L)—12-01-01.
3. Tilak Raj Kalsotra, 8371064-L Now (JC-834353-N)—01-12-2000.

4. Maheshwar Ohdar, 8371247-F Now (JC-834354W)—11-01-01.

5. Balwant Singh Khatri, 8371485-N Now (JC-834355Y)—20-12-2000.

6. Dhruv Kumar, 8371575-P Now (JC-834356-F)—14-01-01.

7. ~~Ram~~ Kishore Prasad, 8371681-N Now (JC-834357-K)—02-12-2000.

8. I. G. Johanson, 8372045-M Now (JC-834358-M)—09-01-01.

9. Sunil Cherobin, 8372590-W Now (JC-834359-P)—22-01-01.

10. Md. Rayeesul Azam, 8372631-P Now (JC-834360-K)—10-01-01.

11. T. Mohan, 8372779-N Now (JC-834361-M)—12-01-01.

12. A. Gurusamy, 8373485-M Now (JC-834362-P)—10-01-01.

13. Dilip Kumar Behra, 8373681-M Now (JC-834363-X)—10-01-01.

14. L. Seenu 8370025-A Now (JC-834366-L), 16-01-01.

15. V. Satyanarayana, 8372636-N Now (JC-834367-N)—12-01-01.

HAV/CLKS TO BE NB SUB/CLK (POSTAL)

16. Fulvari Lal 8430426-F Now (JC-834364-A)—23-11-2000.

17. Suresh Kumar, 8430600-H Now (JC-834365-H)—24-11-2000.

18. Satyendra Prasad Singh, 8430647-N Now (JC-834368-W)—23-01-01.

19. Sahukar Sharma, 8430425-Y Now (JC-834369-Y)—16-01-01.

20. Bharosi Lal Nautiyal, 8430082-N Now (JC-834370-N)—12-01-01.

21. Rajasekharan K, 8025138-X Now (JC-834371-W)—02-02-01.

22. Manoj Kumar Chhetri, 8430123-M Now (JC-834372-Y)—01-02-01.

23. Manoj Kumar, 8430139-X Now (JC-834373-F)—22-02-01.

Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk (Postal) for Ser No 01 to 13, 16 and 17 wef 01 Oct 2000, for Ser No 14 and 15 wef 25 Oct 2000 for Ser No 18 wef 17 Nov 2000, for Ser No 19 and 20 wef 01 Jan 2001 and Ser No. 21 to 23 wef 01 Feb 2001 without effect on their pay and allowances.

P. S. CHOUHARY
Under Secy

No. 358, dated 23rd May 2001.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt (on Prob)

N K Jain (MR-07245-Y), AMC—05 Feb 2000.

Rajat Jain (MR-07348-K), AMC—23-6-2000.

S C Shaw (MR-07243-N), AMC—05 Feb 2000.

S. K. PURI
Brigadier
DY DGAFMS (P)

No. 359, dated 17th May 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Brig to be Surg Rear Admiral

VC Ohri (MR-2090L) (75724Z) AMC/PC 10-11-2000 (Notional seniority without any effect on his pay and pension from 01-09-2000).

Maj Gen J. R. BHARDWAJ
Addl DGAFMS

No. 360, dated 22nd May 2001.—The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78, as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)

Lt-Col to be Col (or equivalent)

H G Garge (DR-10290-W)—23-6-2000.

With notional Seniority from 01-5-2000.

S M Mohan (DR-10295-P)—01-6-2000.

With notional Seniority from 01-6-2000.

R N Taneja (DR-10291-Y)—22-6-2000.

With Notional Seniority from 01-6-2000.

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(SHORT SERVICE COMMISSION)

Capt to be Maj (Q/S)

Balwinder Singh (DS-11892-W)—06-02-2001.

S K Saini (DS-11893-Y)—08-02-2001.

Dileep Kumar (DS-11901-M)—28-02-2001.

R. K. SETHI
DY. DGDS

No. 361, dated 18th May 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY : PERMANENT COMMISSION

Substantive Brigadier to be substantive Major General

SK Bali (IC-15513) Arty, 10 Oct 2000.

Ashok Coomar (IC-13609) Inf Mahar, 01 Nov 2000.

RN Radhakrishnan (IC-15116) Engrs, 01 Dec 2000.

Substantive Colonel to be substantive Brigadier

MK Chari (IC-17895) Engrs, 23 Apr 1998.

SK Mishra (IC-16507) EME, 01 Jun 2000.

SV Prem Kumar (IC-17543) EME, 01 Jun 2000.

LS Kulhari (IC-20065) EME, 01 Aug 2000.

RS Balyan (IC-19578) Arty, 07 Nov 2000.

RE Chawan (IC-16273) Arty, 30 Nov 2000.

MS Parthasarathy (IC-17899) Engrs, 01 Dec 2000.

DK Bhargava (IC-20642) Engrs, 02 Dec 2000.

JK Bajaj (IC-20674) Engrs, 03 Dec 2000.

PN Malhotra (IC-21970) Arty, 01 Jan 2001.

Substantive Lt Colonel to be Substantive Colonel

JC Pant (IC-28506) Sigs, 01 Oct 97 (Notional seniority without effect on pay and pension).

Sudhir Kumar (IC-32516) Sigs, 02 Jun 2000.

UK Ganguli (IC-30614) Sigs, 03 Jun 2000.

A Solanki (IC-30641) Sigs, 01 Aug 2000.

AM Vali (IC-27268) Sigs, 07 Nov 2000.

AN Mudre (IC-30954) EME, 30 Nov 2000.

Pramod Sinha (IC-24161) EME, 01 Dec 2000.

KR Singh (IC-29757) EME, 04 Dec 2000.

TS Dogra (IC-29878) EME, 05 Dec 2000.

AJAY KUMAR

SCSO

DGQA (Adm-5)

(NAVY BRANCH)

No. 362, dated 22nd May 2001.—The President is pleased to make the following promotion in Engineering Branch (Corps of Naval Constructors) of Indian Navy under provision of Min of Def letter No. NC/3066/NHQ/3182/D N-II) dated 10 Jun 77 and Navy order 127/79.

(NAVY BRANCH)

PERMANENT COMMISSION

Name & Personal No., SLt to be Lt

Bharat Tyagi (41870-H), 01-02-98.

MP Mathew (41871-K), 01-02-98.

S Viswanathan (41872-N), 16-01-98.

H Bahuguna (41873-R), 01-07-98.

MA Pradeep (41874-T), 01-03-98.

R Kartik (41875-W), 01-04-98.

KR Shyam (41876-Y), 16-06-98.

CR Rejith (41877-Z), 01-07-98.

A Shankar (41987-Z), 16-06-99.

R Jaikumar (41988-A), 01-05-99.

A Kapoor (41989-B), 01-02-99.

S Chadha (41990-P), 16-01-2000.

PR Sudarsanan (41991-H), 16-10-99.

KK Arvind (41992-K), 01-01-99.

P Pant (41993-N), 01-01-99.

M Kumar (41994-R), 01-01-99.

The President is pleased to make the following promotions in Executive Branch (Logistic Cadre) of Indian Navy under provision of Min of Def letter No. MP/0421/NHQ/869/US/D (N-II) dated 01 May 89 and TR/0886/LSS/P dated 04 Jun 93 :—

(NAVY BRANCH)

PERMANENT COMMISSION

Sub Lt to Lt

Gautam Anand (04546-H), 16-11-98.

The President is pleased to make the following promotion in the Executive Branch (Air Traffic Control) of the Indian Navy letter No. TR/8282 dt. 09 Feb 93 and Min of Def letter No. MP/0491/NHQ/743/DO/D (N-IV) dated 01 Jul 92 :—

NAVY BRANCH

SHORT SERVICE COMMISSION

Name & Personal No., SLt to be Lt

ST Jog (04586-Y), 05-12-98.

Ramesh P (04587-Z), 05-01-99.

R Singh (04588-A), 05-08-98.

B Varghese (04589-B), 05-01-99.

PP Kumar (04590-F), 20-11-98.

S Supriya (04591-H), 20-12-98.

2. This cancels Gazette Notification Published on 23 Sep 99 except in respect of LT HK Tirumalsetti (04465-Y).

Name & Personal No., SLt to be Lt

R Khanger (04462-R), 22-10-97.

NK Anand (04463-T), 07-09-97.

The President is pleased to make the following promotions in the Executive Branch (Naval Aviation Cadre) of the Indian Navy Order No. 56/80 :—

NAVY BRANCH

PERMANENT COMMISSION

Ag SLT to be SLT

SLT to be LT/seniority from

A Rathna (04323-Z) 22-06-97, 23-6-97/16-7-97.

RJ Thaliath (04492-H) 01-01-96 (as SLT) 20-12-98/16-06-98.

Midshipman to Ag SLT/seniority from Ag SLT to SLT & SLT to LT

NS Dalal (03014-Z) 25-08-86/01-07-86, 01-07-87—16-12-88.

The President is pleased to make following promotion in Engineering Branch (Corps of Naval Constructors) of Indian Navy under provision of Min of Def letter No. NC/3066/NHQ, 3182/D (N-II) dated 10 Jun 77 and Navy Order 127/79 :—

NAVY BRANCH

PERMANENT COMMISSION

Name & Personal No., Ag SLT to be SLT/Seniority from,

SLT to be Lt

Manoj Kumar Gaur (41453-K) 7-8-90/7-8-89—07-12-91.

A K MALIK
SCSO
JOA&R

ARMY BRANCH

No. 363, dated 18th May 2001.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to release with permission to retain his rank —

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

Maj SK Mongia TA(M)-1151 AMC (TA), 30 Nov 2000.

B N. SINGH
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 364, dated 17th May 2001.—The President is pleased to retire the undermentioned officer(s) on attaining the age of superannuation (including extended period) as indicated against each :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

AF List 418/99

AVM TK Mitra (MR-1894) (AF-23432) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N).

AVM DK Gupta (MR-2114) (AF-7257) AMC/PC, 30-09-2000 (A/N).

Air Cmde R Singh (MR-2602) (AF-9939) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N).

Air Cmde SP Deshmuk (MR-2342) (AF-9303) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N).

Gp Capt RR Kapur (MR-2191) (AF-11187) AMC/PC, 31-05-2000 (A/N).

Gp Capt SC Srivastava (MR-3644) (AF-11733) AMC/PC, 31-07-2000 (A/N).

Gp Capt NS Baboo (MR-2948) (AF-12903) AMC/PC, 31-07-2000 (A/N).

Gp Capt JD Buttan (MR-4404) (AF-12680) AMC/PC, 30-09-2000 (A/N).

J. R. BHARDWAJ

Maj Gen

Adtl DGA&MS

No. 365, dated 18th May 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY : PERMANENT COMMISSION CORRIGENDUM

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 12 Aug 2000 under the heading Regular Army, Permanent Commission for Sub Heading :—

Substantive Colonel to be Substantive Brigadier

Against the names of, For—Read

MS Bhandary (IC-17134) Engrs, 23 Apr 1998—24 Apr 1998.

JK Nangpal (IC-16105) Engrs, 01 May 1998—13 May 1998.

R Rajamani (IC-17537) EME, 13 May 1998—09 May 2000.

Substantive Lt Colonel to be Substantive Colonels

Against the names of, For—Read

Oomen John (IC-30275) EME, 28 Apr 1998—04 May 1998.

KK Murthy (IC-30279) EME, 29 Apr 1998—05 May 1998.

Srinivasan Arun (IC-30281) EME, 30 Apr 1998—06 May 1998.

KB Kapoor (IC-27599) EME, 01 May 1998—07 May 1998.

JPS Chauhan (IC-27913) Engrs, 02 May 1998—08 May 1998.

AL Anand (IC-32286) Sigs, 03 May 1998—09 May 1998.

T Ramaiah (IC-25437) Sigs, 04 May 1998—10 May 1998.

S Kalia (IC-25462) EME, 05 May 1998—01 May 1998.

R Saxena (IC-25566) EME, 05 May 1998—09 May 2000.

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 30 Sep 2000 under the heading Regular Army, Permanent Commission, Sub heading substantive Colonel to be Substantive Brigadier against Dipak Anand (IC-16057) Encls :—

For : 24 Apr 1998.

Read : 01 May 1998

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 04 Jul 1998 under the heading Regular Army, Permanent Commission for Sub Heading :—

Substantive Lt Colonel to be Substantive Colonels

Against the names of, For—Read

APS Gill (IC-28711) AOC, 23 Oct 97—01 Nov 1997.

RR Munthv (IC-28759) Engis, 01 Nov 97—02 Nov 1997.

HS Arora (IC-29144) TME, 02 Nov 97—03 Nov 1997.

IS Dhillon (IC-29685) EME, 04 Nov 97—28 Apr 1998.

IK Kaushik (IC-29886) EME, 01 Dec 97—29 Apr 1998.

VR Handa (IC-25267) EME, 01 Jan 98—30 Apr 1998.

IP Singh (IC-30251) EME, 01 Feb 98—02 May 1998.

IR Sonawane (IC-30255) EME, 02 Feb 98—03 May 1998.

AJAY KUMAR

SCSO

DGQA (Adm-5)

